# Euro Asia Exports Limited

Date: 09.11.2023

To, BSE Limited, Listing Manager, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street fort, Mumbai-400001

## Subject: Newspaper Advertisement- Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement of Unaudited Financial Results for the quarter ended September 30, 2023 published in Business Standard on November 09, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For and on behalf of Board of Directors of **Euro Asia Exports Limited** 

Shruti Digitally signed by Shruti Choudhary Choudhary Date: 2023.11.09 11:07:59 +05'30'

Shruti Choudhary Company Secretary

Encl: As above

ς,

Regd. Office : Plot No. 3-A, Ist Floor, BLK-X, Loha Mandi, Naraina Industrial Area, New Delhi-110028 Corporate Office : 2<sup>nd</sup> Floor, Plot No. B-103, South City - I, Gurugram, Haryana - 122001 CIN: L51909DL1981PLC012621 Ph.: 0124-4577739 Email ID: inf@euroasiaexportsltd.com www.euroasiaexportsltd.com

#### pnb punjab national ban पजाब नैशनल बैक ..the name you can BANK upon!

#### **ZONAL SASTRA CENTRE DELHI** 1ST FLOOR, 7th BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066 EMAIL ID zs8343@pnb.co.in 60 Days' Notice to Guarantor/Mortgager

Dated: 17.10.2023 1. Sh. Saniay Chandra S/o Sri Ramesh Chandra. C 41 Mavfair Gardens New Delhi 110016 2. Sh. Ramesh Chandra S/o Sri Ramachand Mansharamani, C41 Mayfair Gardens New Delhi 110016

#### NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002

### Reg: Account No. 09024011000140 credit facilities availed by M/s Unitech Power Transmission Ltd

M/s Un	W/s Unitech Power Transmission Ltd, 6, Community Centre, Saket New Delhi 110017 have availed the following credit facilities:							
S. No.	S. No. Facility Limit Rate of Interest		0		Total outstanding as on date of issuance of notice			
1.	CC	Rs. 15.00 Crore	13.25%	Rs. 18,07,38,189.44	Rs. 1,26,72,653.35	Rs. 19,34,10,842.79 as on 16.10.2023 + further future interest & Charges		
2.	ILC/FLC	Rs. 17.00 Crore		Rs. 47,76,26,422.00 + further future interest	Rs. 1,26,72,653.35	Rs. 47,76,26,422.00 as on 16.10.2023 + further future interest & Charges		
3.	ILG/FLG	Rs. 70.00 Crore		& Charges				
			Total	Rs. 65,83,64,611.44 + further future interest & Charges	Rs. 1,26,72,653.35 + further future interest & Charges	Rs. 67,10,37,264.79 as on 16.10.2023 + further future interest & charges		

Due to non-payment of instalment/interest/principal debt the account/s has/ have been classified as Non-Performing Asset as on 31.03.202 as per Reserve Bank of India guidelines. We have already demanded/recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities from the Borrower, vide letter dated 17.10.2023, copy of which has already been sent to you. We invoke you guarantee vide this letter. The amount due to the Bank as on 16.10.2023 is Rs. 67,10.37,264.79 (Rupees Sixty-Seven Crore Ten Lakh Thirty Seven Thousand Two Hundred Sixty-Four and Seventy-Nine Paisa only) with further interest & Charges less recoveries until payment in ful (hereinafter referred to as "secured debt")

To secure the outstanding under the abovesaid facilities, you have, inter alia, created security interest in respect of the following properties/assets:

S.No.	Facility	Security	
1	CC	Primary: • First Pari-Passu Charge on stock & Book debts (Present & Future) of the company along with other consortium member.         • First Pari-Passu charge on all the current assets (Present & Future) of the company along with other consortium member.         Collateral: • First Pari-Passu charge on Fixed Assets (Present & future) of the company         • First Pari Passu Charge by way of mortgage on land & Building located at A-33 MIDC Industrial Area, Butibori, Nagpur Maharashtra 441108 admeasuring 87600 Sq Mtrs in the name M/s Unitech Power Transmission Ltd.         • First Pari Passu Charge by way of mortgage on Vacant Primary School Plot No PS-04 Block T South City II Phase II(Nirvana Country) Gurugram Haryana admeasuring 1.066 Acres in the name of M/s Mahoba Builders Ltd         • First Pari Passu Charge by way of mortgage Vacant Primary School Plot No. PS-01 Block H South City-II Phase I (Opposite F Block Market) Gurugram Haryana admeasuring 1.032 Acres in the name of M/s Mahoba Schools Ltd.	
2	ILC/FLC	Primary: • Documents of tittle to goods in case L/C on DP basis. • Hypothecation charge over the goods in case of L/C on DP basis. Collateral: • First Pari-Passu charge on Fixed Assets (Present & future) of the company • First Pari Passu Charge by way of mortgage on land & Building located at A-33 MIDC Industrial Area, Butibori, Nagpur Maharashtra 441108 admeasuring 87600 Sq Mtrs in the name M/s Unitech Power Transmission Ltd. • First Pari Passu Charge by way of mortgage on Vacant Primary School Plot No PS-04 Block T South City II Phase II(Nirvana Country) Gurugram Haryana admeasuring 1.066 Acres in the name of M/s Mahoba Builders Ltd • First Pari Passu Charge by way of mortgage Vacant Primary School Plot No. PS-01 Block H South City-II Phase I (Opposite F Block Market) Gurugram Haryana admeasuring 1.032 Acres in the name of M/s Mahoba Schools Ltd.	
3	ILG/FLG	Primary: • Documents of tittle to goods in case L/C on DP basis. • Hypothecation charge over the goods in case of L/C on DA basis. Collateral: • First Pari-Passu charge on Fixed Assets (Present & future) of the company • First Pari Passu Charge by way of mortgage on land & Building located at A-33 MIDC Industrial Area, Butibori, Nagpur Maharashtra 441108 admeasuring 87600 Sq Mtrs in the name M/s Unitech Power Transmission Ltd. • First Pari Passu Charge by way of mortgage on Vacant Primary School Plot No PS-04 Block T South City II Phase II (Nirvana Country) Gurugram Haryana admeasuring 1.066 Acres in the name of M/s Mahoba Builders Ltd • First Pari Passu Charge by way of mortgage Vacant Primary School Plot No. PS-01 Block H South City-II Phase I	

Prist Pain Passu Charge by way of morgage vacant Primary School Piot No. PS-01 block in South Clight Primare 1 (Opposite F Block Market) Gurugram Haryana admeasuring 1.032 Acres in the name of M/s Mahoba Schools Ltd.
We hereby call upon you to pay the amount of Rs. 67,10,37,264.79 (Rupees Sixty-Seven Crore Ten Lakh Thirty-Seven Thousand Two Hundred Sixty-Four and Seventy-Nine Paisa only) with further interest & Charges less recoveries on the contracted rate until payment in full within 60 days (sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank available under Law, the Bank is ntending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of non-payment of secured debt by you are as under:

First Pari-Passu Charge on stock & Book debts (Present & Future) of the company along with other consortium member. First Pari-Passu charge on all the current assets (Present & Future) of the company along with other consortium member

First Pari-Passu charge on Fixed Assets (Present & future) of the company

Documents of tittle to goods in case L/C on DP basis.

Hypothecation charge over the goods in case of L/C on DA basis.

First Pari Passu Charge by way of mortgage on land & Building located at A-33 MIDC Industrial Area, Butibori, Nagpur Maharashtra 441108 admeasuring 87600 Sq Mtrs in the name M/s Unitech Power Transmission Ltd. First Pari Passu Charge by way of mortgage on Vacant Primary School Plot No PS-04 Block T South City II Phase II (Nirvan Country) Gurugram Haryana admeasuring 1.066 Acres in the name of M/s Mahoba Builders Ltd

First Pari Passu Charge by way of mortgage Vacant Primary School Plot No. PS-01 Block H South City-II Phase I (Opposite F Block

Market) Gurugram Haryana admeasuring 1.032 Acres in the name of M/s Mahoba Schools Ltd. /our attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured asset Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease o otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realised shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will be liable to render proper account of such realisation/inco

We reserve our rights to enforce other secured assets. Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences

This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case may be Yours faithfully.

For Punjab National Bank AUTHORISED OFFICER

## A strong foundation for a progressing nation

- AUM ₹ 18.885 Cr.
- DISBURSEMENT (H1 FY 24) ₹ 3,163 Cr.

#### EAST COAST ENERGY PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION PRIVATE SALE

Offer for acquiring Township (36.37 acres) and Miscellaneous Assets belonging to East Coast Energy Private Limited("ECEPL"), a coal based thermal power plant with super critical technolog cated near Kakarapalli village, Santhabommali Mandal, Srikakulam district, Andhr Pradesh, India is hereby invited from potential acquirers to acquire whole or part of its remaining ssets through Private Sale

The Private Sale is being conducted as advised by the Stake Holders of ECEPL in the 24<sup>th</sup> Stak olders Meeting held on **<sup>76</sup> November 2023 at 11.30 am**, and is in accordance with provisions c nsolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") read with Regulations 32 and 33 of the Insolvenc

and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016. Your Offer should reach us by **17.00 hours on or before November 19, 2023** in a seale velope at "Shri Devendra Prasad, Flat-1304, A Wing, Raheja Ridgewood, Near Nesco Goregaon (East), Mumbai City, Maharashtra 400063, INDIA" and a scan copy of the sam

should also be sent at liquidatoreastcoast@bdo.in Details of Assets and other information like the Reserve Price of the last failed auction a

available at : http://www.eastcoastenergy.co.in/LIQUIDATION.html In case of any further queries, the interested parties may iquidatoreastcoast@bdo.in

Disclaimer: The advertisement shall in no manner be deemed to be a prospectus, or an offer locument for the sale of assets of the Company. The advertisement does not create any kind o inding obligation on the part of the Liquidator. Further, the Liquidator may from time to time update, amend or supplement the information in the invitation. Any such update/ amendment upplement/corrigendum shall be communicated via the website of Company. The Liquidator has he right to modify or cancel the process and/ or disqualify any interested party without any liability

Devendra Prasa

adi<sub>Ka</sub> <sup>rit</sup> Mahotsav

Liquidator for East Coast Energy Private Limited Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N00436/2017-2018/11271

AFA Valid Till: 5th Dec

## **EURO ASIA EXPORTS LIMITED**

Regd. Office: Plot No. 3-A, 1<sup>st</sup> Floor, Blk-x Loha Mandi, Naraina Industrial Area, New Delhi -11002 Corporate Office: 03rd Floor, Plot No. B- 103, South City I, Gurugram, Haryana- 122001 CIN No.: L51909DL1981PLC012621, Email:info@euroasiaexportsltd.com , Ph. No. 0124- 4577733

Extracts of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30<sup>th</sup> September, 2023

Particulars	Quarter ended 30 <sup>th</sup> September, 2023	Half Year ended 30 <sup>th</sup> September, 2023	Quarter ended 30 <sup>th</sup> September, 2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	5.21	11.91	5.80
Net (Loss) for the period before tax and Exceptional item	6 0.79	1.82	0.05
Net (Loss) for the period before tax	0.79	1.82	0.05
Net (Loss) for the period after tax	0.57	1.33	0.05
Total Comprehensive income for the period	0.57	1.33	0.05
Equity Share Capital	156.88	156.88	156.88
Earning Per Share :			
Basic	0.04	0.09	-
Diluted	0.04	0.09	-1

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the Company's website www.euroasiaexportsltd.com. For and on behalf of Board of Directors of

	EURO ASIA EAP	OK 13 LIMITED	
Date: 08.11.2023	Sd/- Rakesh Kumar Singal	Sd/- Mukund Murari	
Place : New Delhi	Managing Director DIN: 06595136	Director DIN: 08606277	

## **NORTHERN RAILWAY**

**ONE STATION ONE PRODUCT** 

Applications are invited under scheme of 'One Station One Product' for setting up: A. Stall at Panipat, Gurgaon, Ghaziabad, Samalkha, & Pataudi Road stations.

- B. Temporary stall at: Shamli, Baraut, Ballabhgarh, Partapur, Faridabad New town, Tapri, Sahibabad, Noli, Narela, Tughlakabad, Palam, Tilakbridge, Khatauli, Okhla, Sampla, Asaoti, Delhi Safdarjung, Julana, Mangolpuri, Naya Ghaziabad, Muradnagar, Sakoti Tanda, Vivek Vihar, Delhi Azadpur, Shivaji Bridge, Badli, Modinagar, Deoband & Garhi Harsaru stations in leading newspapers.
- The period for setting up of stall at Gurgaon, Ghaziabad, Samalkha & Pataudi Road, stations per spell will be 90 days.
- The period for setting up of temporary stall at stations mentioned in (B) above will be 30 days per spell.
- Registration fee will be charged @ rate of Rs. 2000 for each spell of thirty days and for NSG 4 (Pataudi Road, Baraut, Ballabhgarh, Faridabad New town, Sahibabad, Noli, Narela, Tughlakabad, Palam & Modinagar) NSG 5 (Samalkha, Shamli. Tapri, Tilak Bridge, Khatauli, Okhla, Sampla, Asaoti, Julana, Mangolpuri, Muradnagar, Vivek Vihar, Shivaji Bridge, Badli, Deoband, Garhi Harsaru & Delhi Safdarjung) & NSG 6 (Partapur, Naya Ghaziabad, Sakoti Tanda & Delhi Azadpur) registration fee will be charged @ rate of Rs. 1000 for each spell thirty days.
- The following are the eligibility criteria for participant viz.
- a) Holder of Artisans/Weaver ID card issued by Development Commissioner Handicraft, Development Commissioner Handloom, or by the requisite state/ Central Government Authority.
- b) Individual artisans/weavers/craftsmen enrolled/registered with Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED)/National Handloom Development Corporation (NHDC)/Khadi/Village Industries Commission (KVIC)/associated with Social Organizations, State Govt. bodies and associated with registered micro enterprises on the Udyam Portal of the Ministry of MSME and NGOs etc.
- c) Self Help Groups registered with PMEGP (Prime Minister's Employment Generation Programme).
- d) Marginalized or weaker sections of society.
- e) No separate logo shall be allowed.
- The applicant will have to submit an undertaking to the Station Superintendent indicating that no activity would be undertaken to adversely affect the train operations, passenger safety and image of the Railways.
- Applications should be addressed and can be submitted to Station Superintendent at station by the applicant till 15:00 hrs. of 09.11.2023, which will be opened on same day.
- Station Superintendent will make priority roster of all approved participants and priority will be established through a draw of lots conducted at the station in the presence of all approved applicants by the Station Manager/Sectional CMI and nominated Finance representative.
- The One Station One Product scheme shall be governed by Railway Board's Commercial Circular No. 12 of 2022 and 09 of 2023 respectively available at website: www.indianrailways.gov.in & URL: https://indianrailways.gov.in/railwayboard/ uploads/directorate/traffic\_comm/Comm\_Cir\_2022/OSOP%20Policy.pdf & https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic comm/ Comm\_Cir\_2023/CC%20%2009%20of%202023.pdf
- For any queries applicant may contact Station Superintendent or CMI of the respective stations. 3485/2023

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

(Ship & Submarine Builders to the Nation)

### SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2023 (Rs. in Lakh except EPS) **Consolidated Financial Result** Six Months Ended For the year ended Quarter Ended Particulars September September 30, 2023 30, 2022 September September 30, 2023 30, 2022 March 31, 2023 Unaudited Unaudited naudited Unaudited Audited Total income from operations 2,07,918 1,86,597 4.48.460 4,23,243 8,51,401 Net Profit for the period (before tax, 40.664 78,996 26.145 55.142 1.40.268 exceptional and /or extraordinary items Net Profit for the period before tax 40.664 26.145 78.996 55,142 1,40,268 (after exceptional and / or extraordinary items) Net profit for the period after tax 21.390 64,722 43,868 1,11,903 33,288 (after exceptional and /or extraordinary items) Total Comprehensive income for the period 33,219 21,165 64,508 44,106 1,11,892 [comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capita 20,169 20,169 20,169 20,169 20,169 Reserves excluding Revaluation Reserves as at 4,55,847 Balance Sheet date



To book your copy, sms reachbs

November 9, 2023

email order@bsmail.in

**Business Standard** 

<u>Aadhar</u>

Insight Out

to 57575 or

### M NET PROFIT AFTER TAX (H1 FY 24) - ₹ 343.56 Cr.

- LIVE ACCOUNTS 2,46,000+
- PRESENCE ACROSS 481 Branches & **Offices 20 States & UTs**

### Toll Free - 1800 3004 2020 | www.aadharhousing.com

Standalone Statement of Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023

						(Rs. in Lakh)
	PARTICULARS	For the quarter ended	For the quarter ended	For the half year ended	For the half year ended	For the year ended
		September 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	61,401	48,429	1,19,203	93,027	1,99,427
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or	25,300	16,583	44,036	31,347	72,055
	Extraordinary items)					
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25,300	16,583	44,036	31,347	69,555
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19,728	12,970	34,356	24,545	54,458
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	19,794	13,007	34,310	24,518	54,455
6	Paid up Equity Share Capital	39,476	39,476	39,476	39,476	39,476
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,64,582	2,99,864	3,64,582	2,99,864	3,30,081
8	Securities Premium Account	1,33,700	1,33,700	1,33,700	1,33,700	1,33,700
9	Net worth	4,04,052	3,39,334	4,04,052	3,39,334	3,69,551
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	12,75,153	11,00,022	12,75,153	11,00,022	12,15,345
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	2.86	2.88	2.86	2.88	2.79
13	Earnings Per Share (not annualised for three months ended periods)					
	1. Basic:	5.00	3.29	8.70	6.22	13.80
	2. Diluted:	4.85	3.19	8.45	6.03	13.38
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	16,910	16,910	16,910	16,910	16,910
16	Debt Service Coverage Ratio	0.70	1.48	0.73	1.40	1.31
17	Interest Service Coverage Ratio	2.06	1.86	1.93	1.83	1.87
18	Total Debts to Total Assets (%)	73.66%	74.57%	73.66%	74.57%	73.66%
19	Net profit Margin (%)	32.13%	26.78%	28.82%	26.38%	27.31%
20	GNPA (%)	1.38%	1.89%	1.38%	1.89%	1.17%
21	NNPA (%)	0.85%	1.36%	0.85%	1.36%	0.77%
22	Provision Coverage Ratio (%)	38.10%	28.37%	38.10%	28.37%	34.25%
23	Capital Adequacy Ratio (CRAR) (%)	42.25%	44.69%	42.25%	44.69%	42.73%

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and the Aadhar Housing Finance Limited https://aadharhousing.com/

b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com

Current ratio, Long term debt to working capital ratio, Bad debts to account receivable ratio, Current liability ratio, Debtors turnover, Inventory turnover and Operating c) margin (%) are not applicable

d) Previous periods / year figures have been regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarter and half year ended september 30, 2023.

> For and on behalf of the Board of Directors of **Aadhar Housing Finance Limited**

Place : Mumbai Date : November 07, 2023

**Rishi Anand** Managing Director & CEO DIN 02303503

Aadhar Housing Finance Ltd., CIN: U66010KA1990PLC011409, Registered Office: No. 3, JVT Towers, 8th 'A' Main Road, Sampangiramanagar, Near Hudson Circle Bengaluru-560 027 | Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai – 400069 | Tel. No. 022 4168 9900 | Fax: 022 4168 9934 | Customer Care Toll Free: 1800 3004 2020 | E-mail: customercare@aadharhousing.com | Website: www.aadharhousing.com

16.50	10.61	32.09	21.75	55.48
16.50	10.61	32.09	21.75	55.48
12,123	12,123	12,123	12,123	12,123
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
	16.50 12,123 Not Applicable Not Applicable	16.50         10.61           16.50         10.61           12,123         12,123           Not Applicable         Not Applicable           Not Applicable         Not Applicable	16.50         10.61         32.09           16.50         10.61         32.09           16.50         10.61         32.09           12,123         12,123         12,123           Not Applicable         Not Applicable         Not Applicable           Not Applicable         Not Applicable         Not Applicable	16.50         10.61         32.09         21.75           16.50         10.61         32.09         21.75           16.50         10.61         32.09         21.75           12,123         12,123         12,123         12,123           Not Applicable         Not Applicable         Not Applicable         Not Applicable           Not Applicable         Not Applicable         Not Applicable         Not Applicable

(Rs. in Lakh except EPS)

		Standalone	Financial F		aki except LPO)
		arter ded	Six Me Enc	For the year ended	
Particulars	September 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
Total income from energiane	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	2,08,825	1,87,141	4,49,367	4,23,787	8,54,066
Net Profit for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	41,571	26,689	79,903	55,686	1,42,933
Net Profit for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	41,571	26,689	79,903	55,686	1,42,933
Net profit for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items)	31,294	20,044	59,956	41,746	1,07,272
Total Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	31,252	19,762	59,771	41,927	1,07,264
Equity Share Capital	20,169	20,169	20,169	20,169	20,169
Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date					3,97,587
Earnings per share (Nominal Value of share Rs.10) (Not annualised)					
Basic:	15.52	9.94	29.73	20.70	53.19
Diluted:	15.52	9.94	29.73	20.70	53.19
Capital Redemption Reserve	12,123	12,123	12,123	12,123	12,123
Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

1. The above results for the quarter ended September 30, 2023, which have been subjected to a Limited Review by the Statutory Auditors of the Company, w by the Board of Directors at its meeting held on 08th November, 2023, in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure R Regulations, 2015.


The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly and Year ended Financial Results filed with the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited under Regulation 33 & 52 (4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended Financial Results are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.mazagondock.in.

3. The Company is equaged in the production of defence equipment and is exempted from 'Segment Reporting' vide notification S.0.802(E), dtd.23rd February, 2018 by amending notification No. G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015. In view of the above, no disclosure is made separately by the Company on operating segments under a second seco Ind AS108

. The above financial result have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 08th November 2023 as recommended by ACM.

The Board of Directors at its meeting held on 08th November 2023 has declared interim dividend of Rs.15.34 per equity share to be paid to the eligible shareholders as on 20th November 2023, being the record date fixed for the purpose.





www.mpsinfotec.com

The key standalone financial information are as under

## 10

	फोन :+ 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 280 वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल		thehitechae				
-				the second	× 0 ×		Total revenue from operations Profit before tax
सत	म्बर 30, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष	हतु अनकाक्षत					Profit after tax
			(ক. নি	मेलियन में, सिवार	प प्रति शेयर डेटा)	3	3. The above results have been
क्र.	विवरण	तिमाही	तिमाही	अर्द्ध वर्ष	अर्द्ध वर्ष		approved by the Board of Direc
सं.		समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त		
		<u>30/09/2023</u> (अनंकेक्षित)	30/09/2022 (अनंकेक्षित)	<u>30/09/2023</u> (अनंकेक्षित)	30/09/2022 (अनंकेक्षित)	I P	Place : New Delhi
1.	परिचालन से कुल आय	2,849.25	3,164.56	5,515.16	6,103.24		Date : 07/11/2023
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	75.45	97.79	198.38	159.29		
3.	अत्ताधारण नदा त पहल) अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	847.05	97.79	969.98	159.29		
_		700.40	05.00		00.07		
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	722.16	35.28	815.15	38.97	व	गबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडि 5ंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमि
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है),	734.18	14.45	845.94	57.59	के वि	समें इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप 5े स्तंभ नंबर 2 में वर्णितानुसार उधारव केया है तथा जबकि आर्सिल ('आर्सिल ६ण खाता∕तों से संबंधित वित्तीय प
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.68	187.68	187.68	187.68		, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमाव
7.	आस्तियों एवं देयताओं के विवरण के अनुसार अन्य इक्विटी				н	ए	ांग सूचनायें निर्गत की थी, जिनमें स्तंभ वं सहमतिकर्ताओं को सूचना की तिधि
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) –					य क्र	
	(क) मूलः (ख) तनुकृतः	38.48 38.38	1.88 1.88	43.43 43.33	2.08 2.08	1	
2)	उपरोक्त अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम अंकेक्षण समिति किए गए हैं और उसके उपरान्त निदेशक मंडल द्वारा नवम्बर 07 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण 3 एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए सितम्बर 30, 2023 को समाप्त प्रारूप का संक्षित्त विवरण है।	, 2023 को सम्प गपेक्षाए) विनियम	न्न इसकी बैठक 11वली, 2015 व	में अनुमोदित वि हे विनियम 33	कए गए हैं। के तहत स्टॉक	2	श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीम
	प्रारूप का सालप्ता विवरण है। समीक्षा अवधि के दौरान, दि हाई—टेक गियर्स कनाडा इन्क	(TUOOA)	<del></del>		रवाणिकव रचेग		श्री अनिल भगत /श्री रमन कुमार
	डाउन सहायक कम्पनी ने अगस्त 31, 2023 को 1787377 ओन का प्लाण्ट अवस्थित है, में अवस्थित भूमि एवं भवन के लिए सेल	टारियो इन्क. के एवं लीज बैक (	साथ गुएल्फ, ओ (S&LB') अनुबंध	ान्टारियो, कनाड व किया है   अपव	ा, जहां THGCA वादात्मक मदों से		प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल व वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. उ द्वारा प्राप्त की गई ऋण् सुविधा में
	आय में, सेल एवं लीज बैक सौदे से अर्जित, Ind-AS के प्राक्धाने की गई है। यह सौदा परिचालन को प्रभावित किए बिना पूरा किय	। के अनुसार परि 11 गया था ।	कलित, रू. 771	.60 मिलियन क	ो राशि, निदर्शित	3	परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट वि
	सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख जानकारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है :	) के अनुसरण मे	ों कम्पनी की प्र		नंकेक्षित वित्तीय रू. मिलियन में)		परनामी / श्री बृजेश कुमार कटारि धमीजा / श्री अनिल भगत / श्री
	6	तिमाही	तिमाही	अर्द्ध वर्ष	अर्द्ध वर्ष		प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल क
	विवरण	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त		वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. र
		30/09/2023		30/09/2023	30/09/2022	IL	प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी ब
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनकेक्षित)		तः, स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसाज
	चालन से आय और अन्य आय	2,042.68	2,192.26	3,872.99	4,146.15		स सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों जिन्हें के उपाल वर्षीज्ञानगए व
	पूर्व लाभ	138.40	213.19	274.30	383.74		ाहमतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार क अनुसार संबंधित ऋण खाता के संव
		100.70	147.25	203.76	255.89		रुल राशि, जो कि भुगतान की तिथि
	सितम्बर 30, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु वित						पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनाः
	(www.nseindia.com और www.bseindia.com) तथा कम्प	ना का वबसाइट	(www.menite			f	भर्धारितानुसार अन्य विधियों से सूचना
				कृत एव हित	निदेशक मंडल	<b>4</b>	थान ः गुड़गांव
				वि रार्च केल	गिगर्च निमित्रेन		
				दि हाई-टेक	गियर्स लिमिटेड हस्ता./-		रेनांक : 09—11—2023
					हस्ता./- दीप कपूरिया		रेनांक : 09—11—2023
स्थ	ान : नई दिल्ली थे : नवम्बर 07, 2023			2	हस्ता./-		

CIN: L29130HR1986PLC081555

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24,25,26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरूग्राम-122050, हरियाणा

tala revenue from operations 0 20.33 10.74 11.75 31.67 26.52 154 or foll barler tax 0 10.79 (65.53) (26.33) (26.35)			Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
िर्तत सीका कि प्राय हिंदिया ना प्राय कि साथ प्राय कि साथ प्राय कि साथ परित कि साथ प्राय के साथ प्राय का साथ के साथ प्राय का साथ के साथ साथ प्राय का साथ साथ प्राय का साथ प्राय का साथ प्राय का साथ प्राय का साथ साथ प्राय का साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ सा								
The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audil Committee and subsequently approved by the Board of Directors attismeeting held on November 7, 2023. For MPS Infotencies Limited Sd- Peeyush Kumar Aggaraat ace : New Delhi te : 07/11/2023					1 /			(
approved by the Board of Directors at its meeting held on November 7, 2023.       For MPS Inducents Limited Sd-Sd-Pesyush Kunard Aggawalla as its Web Delhi         ace : New Delhi       Chairman Limited Sd-Pesyush Kunard Aggawalla as its Web Delhi       Directors at its meeting held on November 7, 2023.         ace : New Delhi       Directors at its meeting held on November 7, 2023.       Directors at its meeting held on November 7, 2023.         ace : New Delhi       Directors at its meeting held on November 7, 2023.       Directors at its meeting held on November 7, 2023.         ace : Ave Delhi       Directors at its meeting held on November 7, 2023.       Directors at its meeting held on November 7, 2023.         ace : Ave Delhi       Directors at its meeting held on November 7, 2023.       Directors at its meeting held on November 7, 2023.         ace : Ave Delhi       Directors at its meeting held on November 7, 2023.       Directors at its meeting held on November 7, 2023.         ace : Ave Delhi       Directors at its meeting held on November 7, 2023.       Directors at its meeting held on November 7, 2023.         ace : Ave Delhi       Directors at its meeting held on November 7, 2023.       Directors at its mellion held on Directors at its mellion				• • •	• • •			• • • • •
ae : New Delhi te : 07/11/2023 Diversion of the second s					Directors by			
the : 07/11/2023  DN:00090423  DN:0009043 DN:000 DN:00090 DN:000 DN:						Pe	eyush Kun	nar Aggarwal
विः एसंट किंग्दूरवरान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंल' के रूप में संपत्ति) एक एसेट किंग्दूरवरान कंपनी है जो मां आलियिया 1966 के तहत निगमित तथा वितीय परिसपतियां के प्रतिशुतिकरण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिशृति हिंग उपलवि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों एवं कर साथ पंज़िल है) और जवकि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों पर साइमतिकर्ताओं ने इंदसाइ में कि तिमिटेड से के प्रणा पाय या है तथा जबकि आर्सित ('आर्सिल-एससेपीएस' आर्च-इर्स्ट' के एकमात्र इरदी के रूप में) ने नीचे दिए पर पार्ट के स्रंस नंबर 1 में उदिलिसित प्राया प्रतिगृति कि (प्रतस्त) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज विनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्ररत वाक्रियों प्रयोगावर्गत, यूषपतार्व मेर्गत के 80, तिमरे संस स 2 य ने वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओं / रास्ट-वारकर्ताओं / गास्ट-पारितयाराको के सहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्राय डी गही हो सकी है। <b>प्रायतर्थ की शत्टिन सं स्वर 2 ने वीरित्राप्राय उपारकर्ता का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रयोगावर्गत,</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रवातिक का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति की सिवि से 80 दिवसों के समत वह भाग तथा औं जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519 /11 व 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 /11 के 51 /11 कि ती के स्वर का पा तचा क</b>							D	
विः एसंट किंग्दूरवरान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंल' के रूप में संपत्ति) एक एसेट किंग्दूरवरान कंपनी है जो मां आलियिया 1966 के तहत निगमित तथा वितीय परिसपतियां के प्रतिशुतिकरण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिशृति हिंग उपलवि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों एवं कर साथ पंज़िल है) और जवकि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों पर साइमतिकर्ताओं ने इंदसाइ में कि तिमिटेड से के प्रणा पाय या है तथा जबकि आर्सित ('आर्सिल-एससेपीएस' आर्च-इर्स्ट' के एकमात्र इरदी के रूप में) ने नीचे दिए पर पार्ट के स्रंस नंबर 1 में उदिलिसित प्राया प्रतिगृति कि (प्रतस्त) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज विनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्ररत वाक्रियों प्रयोगावर्गत, यूषपतार्व मेर्गत के 80, तिमरे संस स 2 य ने वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओं / रास्ट-वारकर्ताओं / गास्ट-पारितयाराको के सहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्राय डी गही हो सकी है। <b>प्रायतर्थ की शत्टिन सं स्वर 2 ने वीरित्राप्राय उपारकर्ता का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रयोगावर्गत,</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रवातिक का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति की सिवि से 80 दिवसों के समत वह भाग तथा औं जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519 /11 व 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 /11 के 51 /11 कि ती के स्वर का पा तचा क</b>								
विः एसंट किंग्दूरवरान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंल' के रूप में संपत्ति) एक एसेट किंग्दूरवरान कंपनी है जो मां आलियिया 1966 के तहत निगमित तथा वितीय परिसपतियां के प्रतिशुतिकरण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिशृति हिंग उपलवि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों एवं कर साथ पंज़िल है) और जवकि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों पर साइमतिकर्ताओं ने इंदसाइ में कि तिमिटेड से के प्रणा पाय या है तथा जबकि आर्सित ('आर्सिल-एससेपीएस' आर्च-इर्स्ट' के एकमात्र इरदी के रूप में) ने नीचे दिए पर पार्ट के स्रंस नंबर 1 में उदिलिसित प्राया प्रतिगृति कि (प्रतस्त) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज विनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्ररत वाक्रियों प्रयोगावर्गत, यूषपतार्व मेर्गत के 80, तिमरे संस स 2 य ने वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओं / रास्ट-वारकर्ताओं / गास्ट-पारितयाराको के सहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्राय डी गही हो सकी है। <b>प्रायतर्थ की शत्टिन सं स्वर 2 ने वीरित्राप्राय उपारकर्ता का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रयोगावर्गत,</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रवातिक का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति की सिवि से 80 दिवसों के समत वह भाग तथा औं जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519 /11 व 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 /11 के 51 /11 कि ती के स्वर का पा तचा क</b>								
विः एसंट किंग्दूरवरान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंल' के रूप में संपत्ति) एक एसेट किंग्दूरवरान कंपनी है जो मां आलियिया 1966 के तहत निगमित तथा वितीय परिसपतियां के प्रतिशुतिकरण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिशृति हिंग उपलवि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों एवं कर साथ पंज़िल है) और जवकि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों पर साइमतिकर्ताओं ने इंदसाइ में कि तिमिटेड से के प्रणा पाय या है तथा जबकि आर्सित ('आर्सिल-एससेपीएस' आर्च-इर्स्ट' के एकमात्र इरदी के रूप में) ने नीचे दिए पर पार्ट के स्रंस नंबर 1 में उदिलिसित प्राया प्रतिगृति कि (प्रतस्त) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज विनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्ररत वाक्रियों प्रयोगावर्गत, यूषपतार्व मेर्गत के 80, तिमरे संस स 2 य ने वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओं / रास्ट-वारकर्ताओं / गास्ट-पारितयाराको के सहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्राय डी गही हो सकी है। <b>प्रायतर्थ की शत्टिन सं स्वर 2 ने वीरित्राप्राय उपारकर्ता का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रयोगावर्गत,</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रवातिक का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति की सिवि से 80 दिवसों के समत वह भाग तथा औं जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519 /11 व 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 /11 के 51 /11 कि ती के स्वर का पा तचा क</b>								
विः एसंट किंग्दूरवरान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद 'आसिंल' के रूप में संपत्ति) एक एसेट किंग्दूरवरान कंपनी है जो मां आलियिया 1966 के तहत निगमित तथा वितीय परिसपतियां के प्रतिशुतिकरण एवं पुनिर्माण तथा प्रतिशृति हिंग उपलवि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों एवं कर साथ पंज़िल है) और जवकि नी वि रिप पर पार्ट रंसम नंबर 2 में वर्णितानुसार उपारकर्ता/ वंधककर्ताओं/गारंटरी / सह–पारितयापत्रों पर साइमतिकर्ताओं ने इंदसाइ में कि तिमिटेड से के प्रणा पाय या है तथा जबकि आर्सित ('आर्सिल-एससेपीएस' आर्च-इर्स्ट' के एकमात्र इरदी के रूप में) ने नीचे दिए पर पार्ट के स्रंस नंबर 1 में उदिलिसित प्राया प्रतिगृति कि (प्रतस्त) नियमगती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उन्ज विनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत प्ररत वाक्रियों प्रयोगावर्गत, यूषपतार्व मेर्गत के 80, तिमरे संस स 2 य ने वीर्गतियात्रापर उपारकर्ताओं / रास्ट-वारकर्ताओं / गास्ट-पारितयाराको के सहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सूचनायों प्राय डी गही हो सकी है। <b>प्रायतर्थ की शत्टिन सं स्वर 2 ने वीरित्राप्राय उपारकर्ता का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रयोगावर्गत,</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / अपन क्यार प्रवातिक का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति का नाम / स्वर-प्रयाकतर्ग का नाम /</b> <b>प्रवयक्ति की सिवि से 80 दिवसों के समत वह भाग तथा औं जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519 /11 व 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 का 519 /11 के 519 /11 /11 के 51 /11 कि ती के स्वर का पा तचा क</b>			आंग र	मचना				
मां अक्रियिम 1958 के तहत निममित तथा वितीय परिपतियां के प्रतिमुकिरण एवं पुनर्मिण तथा प्रतिमूति हि प्रार्थन कामियम 2002 (यहां में इसके यद 'अधिनियम' के रूप में संदर्मित) की धारा 2 के अंतर्गत मारतीय रिजर्व के के साथ पंजीवृत है). और जबकि मीधे दिए गए यादे स्वार नंदर 2 में विल्ली 'वार्क्ष राजाली / संकलतोत'। गरारंटने 'सर- यादित्याराज ऐवं प्रवार्भतिकां की में इसरंह के तिमिदे के से साथ प्रारा या है तथा जबकि आसित 'आसित-परासीपरिपर-आई-ट्रस्ट' के एकमाइ हस्टी के रूप मे) में भीवे दिए गए चार्ट के संतम नंदर 1 में उल्तिविक ण खाता/तों से संबंधित वित्तीय परिपारिपर-आई-ट्रस्ट' के एकमाइ हस्टी के रूप में ) में भीवे दिए गए चार्ट के संतम नंदर 1 में उल्तिविक ण खाता/तों से संबंधित वित्तीय परिपारिपर-आई-ट्रस्ट' के एकमाइ हस्टी के आसि ने अधिनियम के अंतर्गत प्रतिमृत ऋगराता के रूप वासाविकर्ती के बोस् 10 तिमेरे तस 1.2 मर्त वीणितानुषार उपारकतोजी / सार-उपारततीजी / गारंटरों / कंककरतीजी / सह-वातिव्यार्क का गया था, किंतु उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से सुवनाये प्रारत ही नहीं हो सकी है। <b>प्रारकर्ती का नाम / सह-उपारकराती का नाम</b> / क्रम व्यारकराती का नाम / प्रकारिकर्ती का नाम / सह-उपारकराती का नाम / क्रम उपारकराती का नाम / प्रवर्गती हैसिटेसन प्राइदेट तिमिटेड (उपारकती)/औ त्रियुवन कुमार परनामी/औ असिल कुमार परनामी/औ रान कुपार परनामी प्रतिकृत पारेखित, ततन गावंत, नुवरांव, हरिपारणा मि स्वित है। तारकी मा प4 का गं गठ है, जो औ राम कुपार परनामी के विकल पार शिर्दरिशन प्राइदेट तिमिटेड (उपारकती)/ औ त्रियुवन कुमार परनामी/औ असिल कुमार पर ना है, जो औ राम कुपार परनामी के विकल पार शिर्दरिशन प्राइदेट तिमिटेड (उपारकती)/ के समस्त वह मान तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 516/11 व 519/11 व 519/11 के 16/2023 के प्रवेशा प्रवर्ग, ततन गावंत, गुवरांव, हरिपारणा – 12001 में सिक, दे तिकि को परना था, है, जो सिर स्वर 50–51 में दियत तथा व्यारिकारारण में है तथा निक्त के का स्वर 1 कि कि स्वल कि काम क्रम क्रम राहक्र के अंतर का त्या कि स्वर वितिक मात औ सित ना सुपा स्वरिति मिरेड के कि सातन वह मान तथा अंश जो परसतीजी के संद 24 50–51 में दियत तथा उपयिक है, सेवट – आंतक जुलूकी सोम्हो : जिसक सामरति के समस्त वह मान तथा अंश जो प्रतसीजी संद र सरपना है अन क्रम प्रवर्ग की ते मरत ही	बकि एसे	ट रिकंस्टक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (यहां		U-	के रूप में संद	र्भित) एक एसे	ट रिकंस्टक्श	न कंपनी है जो
स्तमं नंबर 2 में वर्णितनुमार ज्यारकर्ता / व्यककर्ताओं / मारंटरों / सह-यारितव्याकों पूर्व सहमतिकर्ताओं में इंडसइंड के लिमिटेड से ऋण प्राप्त या है तथा जबकि आसिल ('आसिल-एसमीपीएस-आई-ट्ररट' के एकमात्र ट्रस्टी के रूप में) ने नीवे दिर गर चार के स्तम नंबर 1 में उदिलवित प्रावारा / तो संवर्षित तिया परिपंशतियों का अविष्ठण किया है, और जबकि आसिल ने आधिंगियम के अंतर्गत प्रतिग्त प्रव्रणता के रूप तथा प्रतिमृति दिर (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित एक अधिनियम की थारा 13 (2) के अंतर्गत प्रवर शकियों के प्रयोगातर्गत, ग सूचनीतर्जाकों को सूचना की तिथि से 00 दिवसों के अंदर सूचनाओं / सह-ज्यारकर्ताजों / पारंटरों / बंककर्ताजों / सह-वारितव्यासको सहमतिकर्ताकों को सूचना की तिथि से 00 दिवसों के अंदर सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मावी व्याज का प्रतिभुगतान करने कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विनिन्न करणों से सूचनायें प्राप्त ही मही हो सकी हैं। जयारकर्ता को सूचना की तिथि से 00 दिवसों के अंदर सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मावी व्याज का प्रतिभुगतान करने कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विनिन्न करणों से सुचनायें प्राप्त ही मही हो सकी है। जयारकर्ता काम/ <b>सर व्या</b> स र्यात्रानी प्रसिद्ध से व्यवसित, स्तन नाइंन, गुडगांद हरियागा – 12001 में स्वित है जिसको माप 448 वर्ग न क. जी ने के 1947/11 के सर में सिवर, रख व्यवसित, रतन नाईन, गुडगांद हरियागा – 12001 में स्थित है जिसको माप 448 वर्ग न क. जी भी सन्म कुष्मार स्पत्नामें राशिक्तवार्पक, आहूता का घर। महिष्यन देवात आव्याहता का घर। बीत्र सर्व अक्लपर प्रार्डनेट लिगिटेड/जो. एव. परनानी / क्री अन्ने वुवन कुमार परनानी / श्री अवेख मगत कटारी / श्रेमसी अंपु परनानी / श्री अतिक कुमार परनानी/श्री प्रत्ने स्वर नं वर 60–51 में दिवत तथा वपविद है संवटन आंवड पहिलि हि, अबद वाणिध्यक संपति के समस्त वह माग तथा आंव जो एससीओ रॉटी नेसर 80–551/ श्राव्य से का मत त श्री (अनुयूदी संपन्ति) के स्वसन का मान तथा भात तथा भार सिती से से परनानी / सिक, 6.551/ श्रावेस नगत तथा अपित्त (आंत्य स्वर प्रार्वेद लिगिटेड /जी एल स्वरमत यह मान तथा अं तो एससीओ रॉटी नेसर 80–51 में दिवत ताथा उपयिद है संवटन आंवड प्रवर्गि? आंत्र सं स्वर सार्य के स्वर सिकिक स्वार्य संग रह अंत परित से से परना है 1988, 80–65 सं स्व वार्य ती लि	पनी अधि	नेयम 1956 के तहत निगमित तथा वित्तीय परिर	पंपत्तियों के प्रति	भूतिकरण एवं	पुनर्निर्माण तथा	प्रतिभूति हित	प्रवर्तन अधिनि	यम 2002 (यह
या है तथा जबके आर्सिल ('आर्सिल-एसवीभीएस-आई-ट्रस्ट'' के एकमात्र ट्रस्टी के रूप में) ने नीवे दिए गए चार्ट के स्तम नंबर 1 में उल्लिखित ण खात/तो से संबंधित विशीय परिसंपतियां का अधियषण किया है, और जबकि आसिल ने अधिनियम के अंतर्गत प्रतिम् त क्रण्यता के रूप रिवा प्रतिपूर्ति (हि (क्रान्देग) दिमागत 2002 के नियम 3 के साथ विदित जक अविनियम के आरंग 16 20 के अंतर्गत प्रतिम् त क्रण्यता के रूप राव प्रतिपूर्ति (ह (क्रान्देग) दिमागत 2002 के नियम 3 के साथ विदित जक अविनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत प्रतम् त क्रि के प्रयोगतान, न सुरनायों निर्गत की थी, (जनमें सने सं 2 मते वॉणितमुसार उधारकर्ताओं / साल-उधारकर्ताओं / मारटरों / संककर्ताओं / साल-वारित्यारकों संहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 80 दिवसों के अंदर सुचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मावी व्याज का प्रतिमुगत्तन करने कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विभिन कारणणों से सुवनाची प्राप्त ही हो हो हो हो जीएलपी हैबिटेशन प्राप्नदेट (क्रायफत)/श्री त्रिभुवन कुमार परनामी/श्री अनिल कुमार एसरामी/श्री स्वन्य कुमार परनाम प्रतिमूत संचर्ति (क्रायुप्ती संचति) : आवतीय संघति के समस्त वह माग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519/11 के 519/11 कि 519/11 के 519/11 कि 510/11 के 510/11 के 519/11 के 519/11 के 510/11 के 510/11 के 510/11 के 510/11 कि 510/11 के 519/11 के 510/11 क								
तथा प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम को वारा 13 (2) के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों के प्रयोगातमंत, 1 युहानवि निर्गत की थी, जिनमे रसेम सं. 2 मते वर्णितानुसार उपारक्तों जो 'सिल-उपारक्तों जी ' पारंटर् / 'बंधककर्तां जी / सह-वायितव्यारकों स्वासविकर्तां को खुलना की तिथि से 06 दिवसों के अंदर युहानाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत भावी व्याज का प्रतिमुपातन करने कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से युवनायें प्राप्त ही नहीं हो सकी हैं। प्रयासकर्ता का नाम/ 'सह-खायकर्ता का नाम / परिपत्नी हैनिटेशन प्राइदेट लिनिटेड (उपारकराग़े/श्री विभुवन कुमार परनामी/श्री अगिल कुमार एतपहले हैनिटेशन प्राइदेट लिनिटेड (उपारकराग़े/श्री विभुवन कुमार परनामी/श्री अगित कुमार परनामी/श्री रसन कुमार परनामी प्रतिप्तर्ता देवनिर्यक, रतना नाम, नुवनात हरिरायणा – 122001 में खित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग ना कहे, जो श्री समन कुमार परनामी श्वीवर तथा वर्रायकत, रतना नाम्ब्रास परनामी में कि समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519/11 क का में थित तथ वरायकित, रतना नाम्ब्रास परनामी श्वीवर वार्य वर्रायकत, ततन नाम्ब्रास परिसीमित है : जतर– निजी सड़क, दक्षिण– मकान, पूर्व– आर 10, वहुवेरी का मकान प्रविक्त पत्र ग्राइदेट लिनिटेड/जी एल. परनामी मॉकेटिंग कंपनी/श्री त्रिवुवन कुमार परनामी / श्री कुयेत कुमार व्यादेश / श्री सर्ग कुमार परनामी श्री कुर्वत का वर्यात्र में दिता गिरिकेक परित का मारत वह मात तथा अंश जो पससीओ तीट नंबर 50-51 में दिवत तथा वारपरिय श्री अतिल मगत / श्री रमा कुमार परनामी प्रविक्त पार्व / श्री हुवेयुद्ध संपति भी त्री ब्रुव्युद्ध कुमार परनामी / श्री कुर्या के वर्द क्र युद्धिय में से कब्लून की मई है। पत्रात्र संपति मेसरं प्रवर्त श्री एम क्रेवर विगयिटेड के स्वातित्वर कुपार परनामी / श्री त्रिव्युवन कुमार हे संतटन को क्येवर का क्या में विदित वाणिकिक प्रवर करान तथा अंश जो एससीओ लॉट नंबर 50-51 में दिवत तथा वारपरिव संपता के तर्द क्र यहिया / श्रीततो के व्युवर प्रवा भी श्रे श्रीव्रुवर कुपार प्रवरी में सर्स सं स्वाय म में वरादी मा ययर संतरिकर्त के उदर सरात श्री के के क्यर सं कर्य संवित्त वाणिकव प्र		0						
ग सूचनायें निर्मत की थी, जिनमें स्तंभ सं. 2 मतें वर्णितानुसार उधारकर्ताओं / साह-रविकर्ताओं / मारंटरों / बंधककर्ताओ / सहवायित्वधारकों सहमतिकर्ताओं को सुवना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मादी व्याज का प्रतिमुगतान करने कहा गया था, किंतु जनमें से कुछ को विभिन्न करणों से सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मादी व्याज का प्रतिमुगतान करने कहा गया था, किंतु जनमें से कुछ को विभिन्न करणों से सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मादी व्याज का प्रतिमुगतान करने कहा गया था, किंतु जनमें से कुछ को विभिन्न कुमार/ परनामी/श्री अनिल कुमार एक्तारी/श्री देविदेशन प्राइवेट तिमिटेड (ज्वारकर्ता)/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी/श्री अनिल कुमार (19-10-2023 प्रतिमुह्त संति (अनुसूची संपत्ति) : आवातीय संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519V/11 के रू मं खित एवं उपखित, रतन गार्डन, गुजगांव, हरियाणा – 122001 में स्वित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो श्री रमन कुमर परनामी श्री देविदेशन प्राइवेट तिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रियुतन कुमार परनामी / श्री देवेत व्याहणा घर। वी. एस. बेबलपर्स प्राइवेट तिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रियुतन कुमार परनामी / श्री खेत क्षत पर व्याहणा घर। वी. एस. बेबलपर्स प्राइवेट तिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रियुतन कुमार परनामी / श्री खेत क्षत मत त्री स्वत कुप्राच प्रावति त्रीतिव नगत त्री सम कुमर खाल्या प्रतिम्व वाया उपसिद्ध हे सेवटर – ओल्ड ज्युडियिया प्रारं त्र समस्त के रूपर वह माग तथा अंश जो एससीओ प्तांट नंबर 50–51 में दिवत तथा उपसिद हे, सेवटर – ओल्ड ज्युडियो में से पर बेबलपर्स प्रावदेट तिनिटेड के स्वातित्वायात्य में ई (उपयुंक संयति में सर्व परामानी) प्रतीमुं ब्रंख प्राइवेट तिनिटेड / जी. एल. परनामी मार्कटिंग क्याने (श्री त्रियुत संयत्त में परनामान) युद्ध खाता पार की पर्व क्रण स्वति भ्रेत स्वत कुछ के गई है। पत्तामी प्रवुद्ध केंतित प्राइवेट तिनिटेड को पातित वाणिज्यक संपत्त वह माग तथा अंश जो एससीओ जीट तंबर 50–51 में दिवत तथा उपसिद है, सेवटर – ओल्ड ज्युडियिय प्राव्वेट तिनिटेड के पत्तानि के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ जीट तंबर 50, 514/5 हम प्राया मिर यानेत्रेत की स्वत मुखर प्रव								
संहमतिकर्ताओं को सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचनाओं में अंकित राशि तथा राशि पर नियत मावी व्याज का प्रतिमुपातान करने कहा गया था, किंतु उनमें से कुछ को विविग्न कारणों से सुवनायें प्रात ही नहीं हो सकी हैं। प्रात्मकर्ताकों का नम/सह-ज्वारकर्ता की नाम/ / देकवारों हो नहीं हो सकी हैं। प्रात्मि/श्री हैदिरान प्राइदेट लिमिटेड (जायकर्ता)/श्री त्रियुवन कुमार परमानी/श्री अनिल कुमार प्रत्मार्ग/श्री हैदिरान प्राइदेट लिमिटेड (जायकर्ता)/श्री त्रियुवन कुमार परमानी/श्री अनिल कुमार प्रत्मुत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आतातीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंग जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 197/11 व 5197/11 के 5197/11 व वाणावित्र के स्वर्ति के स्वर्ति के स्वर्ति के स्वर्त के क्वर के वा वा वे विद्र वे व्वर्त के क्वर के विंग वे विर्व वाणाव के								
उषारकर्ता का नाम/सह-उषारकर्ता का नाम /	ां सहमति	कर्ताओं को सूचना की तिथि से 60 दिवसों के	अंदर सूचनाओं	में अंकित रागि	शे तथा राशि प			
विक्रेताकर्ता बैंक का नाग / ऋण खाता स.       देपपति       के तिथि         णीएलपी हैबिटेवान प्राइवेट लिमिटेड (उघारकराी)/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी/श्री अगिल कुमार       0	कहा ग				सकी हैं।			
परनामी/औ रमन कुमार परनामी       01-08-2023 के अनुसार       19-10-2023         प्रतिमूत संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519//11 के रूप       के स्वार पं उपरिवत, रतन गार्डन, गुडगां, हरियाणा – 122001 में स्थित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो औ रमन कुमार परनामी वं स्वांगित्वार पं उपरिवत, रतन गार्डन, गुडगां, हरियाणा – 122001 में स्थित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो औ रमन कुमार परनामी वं स्वांगित्वार पर के स्वांगि कं प्रति के प्रत हैं, जा स्वांग के स्वांगि के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519//11 19//11 2023         प्रतियत प्रव प्रविया ग्रवी रे वर्ग ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो परती मैसर्स वरियत श्रव ही तिमिटेड/जा परता की गई करा चुवा वी कि कर प्रव विया परता मार्ड कर्ज विया परता मार्ड कर्ज विया								
प्रतिमुद्ध संपति (अनुसुधी संपति) : आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो मकान नंबर 500 नवीन नंबर 519/11 व 519(7/11 के रूप में स्थित एवं उपस्थित, रत्तन गार्डन, गुड़मांव, हरियाणा – 122001 में स्थित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो <b>श्री रमन कुमार परनामी</b> वं रयामिरवारण में है तथा निमानुसार परिसीमित है : उत्तर– निजी सड़क, दक्षिण– मकान, पूर्व– आर. पी. चतुर्वेदी का मकान परिषम– विजय आहूजा का घर। श्री एस. डेबलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री बुखेत कुमार कटारिया / श्रीनती अंतु परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी/श्री पुनीत बमीजा / श्री बुखेत कुमार कटारिया / श्रीनती अंतु परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री बुखेत कुमार कटारिया / श्रीनती अंतु परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री बुखेत कुमार कटारिया / श्रीनती अंतु परनामी प्रतिमुत संपति (अनुसुधी संपति) : अवल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थिद है, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्स्लेकस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिस, अर्थन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग नी रह है, जो नैसर्स ते एस. डेबलपर्स प्राइवेट विमिटेड के स्वानित्वारण में है (उपगुंक संपति नैसर्स सरानामी गुड्स कैरियर प्राइवेट विमिटेड हाप प्रतनामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजु प्रपानी / श्री क्रिमुवन कुमार परनामी / श्रे बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंतु प्रपानी मार्केटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन कुमार प्रतिमुत संपति (अनुसुधी संपति) : अवत वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित है, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्लेक्स के रूम में विदित वाणिज्यिक परिस, अर्वन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग नीदर है, जो नैसर्स दी एस. डेबलपर्स प्राइवेट तिमिटेक के स्वानित्वायारण में ई (उपगुंक संपत्ती नैरसर्स वीएस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड हाप प्रात के गई श्रिया होखा में भी बंधककत्रतों नं संपति वे समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ पर्ता ने सर्च दी कि या जाता है, उन्ते र प्रतिकर्त श्री वे स्व स वीतिननुसार खुल राशि को मुदति की मा पता गं या हो स्वचा जाता है, त्यांति नेरस संखित हिया जाता है, उ	जीएल		गे त्रिभुवन कुम	नार परनामी/श	भी अनिल कुग	गर इ. 37,1	18,794/-	40 40 2022
में सिंधत एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुडगांव, हरियाणा – 122001 में स्थित हैं, जिसकी माप 448 वर्ग गज है, जो <b>औ रमन कुमार परना</b> मी वे रयानित्वधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर– निजी सड़क, दक्षिण– मकान, पूर्व– आर. पी. चतुर्वेदी का मकान परिषम– विजय आहूजा का घर। ती. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री कृषेत कुपार कटरिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री प्रतीव धनीजा / श्री कृषेत कुपार कटरिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी/श्री प्रतीव धनीजा / श्री क्षेत्र संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेवटर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्प्लेस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अबंन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.72 वर्ग नीटर है, जो नैसर्स दी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वातित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति नैसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रार्व की गई ऋण चुविधा में भी बंककृत की गई है) परनामी / श्री कृषेत्रय प्राइवेट लिमिटेड / जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री कुपेश प्राइवेट लिमिटेड / जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन व्याप्त भी अतित्व मगत / श्री रमन कुमार परनानी प्रतित्व संपति (अनुसूची संपति) : आवल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेवटर – ओल्ड ज्युडिशियत कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिस, अर्वन एरटेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 22.27 वं नीटर है, जो नैश्वर्स वी. एव. डेवलपर्य प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वाएम में है (उपर्युक्त संपत्ति नैसर्स ची.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रांत की गई ऋण चुविधा में भी खंधककृत की गई है)। ह. रतं संख्या 2 में उल्लिखितानुसार कुल राकी मंबि वे सारित वह भाग तथा अंश जो एससी वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रांत की नई ऋण चुविधा में भी विक्त क्वंड के स्वानित्वार्थ गरियक प्रांत से सिर्ध ची. (जासकी माप 22.27 वर्ग नेवड क्रण चुविधा में भी खंबककृत की गई है)। ह. रतं संख्वा व, ह्वर डेवलर क्रावर्ड कर स्व में दिखा वाणि तिंप								19-10-2023
परियम- विजय आहूजा का घर। त. एस. खेवलपसं प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्रे बुलेग कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी/श्री पुनीत धनीजा / श्रे बोनल मगत /श्री रमन कुमार परनामी प्रतिमूत संपत्ति (अनुसूची संपति) : जवल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ ग्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित है, सेक्टर – ओल्ड ज्युविधीयल कॉम्ल्वेस्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्जन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 22.27 यंग मीटर है, जो मैसर्स पी, एस. खेवलग्सं प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वारण में है (उपयुंक संपत्ति मेसर्प परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्रे इरोग कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री दुनेपुत्त कुमार परनामी / श्री इरोग कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री दुनेमुवन कुमार परनामी / श्री इरोग कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री दुनेमुवन कुमार परनामी / श्री इरोग कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री दुनेमुवन कुमार परनामी / श्री इरोग कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री क्रिमुवन कुमार पत्ति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हे, सेवटर – ओलड ज्युविधीयल कॉमन्तेस्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अंतन परदेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 22.27 यंग मीटर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वाधारण में है (उपर्युक्त संपति नेसर्स वी, प्रात है, जिसकी माप 22.27 यंग मीटर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वानित्वाधारण में है (उपर्युक्त संपति नैसर्स वी, एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रातक तार्य के पर जुदुविया में भा क्याककृत की गई है। हत्त संख्या 2 में उल्लिखितनुमार उदालपर्का (प्रां संप्र ने प्रातानकों/ गारंटरों/ सह–दायित्वारको एवं स्हमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, जन दर्स संख्या 2 में उल्लिएतानुमार कुवर की मुयातान करने के लिए कहा जाता है त्यारिक त्यारक कां रारे तिथि जियार का यहा	परनाम		प्राचन तन भाग	त्रशा अंषा जो	मकान नंगर ६०		3 के अनुसार	
श. एस. डेबलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी/श्री त्रिमुवन कुमार परनामी /       ए. 11.86.46.551/- 30-08-2023 के अनुसार       19-10-2023         श्री अनिल मगत /श्री रमन कुमार परनामी       ग्री स्वेत तथा उपस्थित के अनुसार       19-10-2023         प्रतिमृत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50-51 में स्थित तथा उपस्थित है, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्वन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.76 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी, एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वागित्वचारण में है (उपर्युक्त संपत्ति भेसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड कर वागितिखारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मेसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड कर स्वागित्वचारण में है (उपर्युक्त संपत्ति भेयर प्राइवेट लिमिटेड कर वागित्वचारण में है (उपर्युक्त संपत्ता में सर्प परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड कर वागित्वचारण में है (उपर्युक्त संपत्तामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड कर स्वागित्वचारण परनामी / श्री व्रुमुव्द कृपार प्रदर्शा प्रदुक्त कि मगत / श्री समन कुमार परनामी       19-10-2023         परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंखू परनामी श्रो अनिल कुमार परनामी / श्री युनीत वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी एस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वागित्वचारण परंतर, अर्वन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 22.76 के अनुसार       19-10-2023 के अनुसार         प्रति (अनुसूदी संपति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह माग तथा अंश जो एसरकी परंति (अनुस्त है. जिलकी माप 22.77 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी एस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्तचारण में है (उपर्युक संपति कि सरक्त है. जिनर क्य परियत प्राइये प्रातं संखरा 2 में जिल्लखितानुसार फाइवेट लिमिटेड के स्वामित्तचार परंत, अंत परंतर त्र त्य संख्या व वारितिंग संव वा कि परंतर त्य संस्था व के	<b>परनामी</b> प्रतिभूत में रिथ	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा	- 122001 में	स्थित हैं, जिर	नकी माप 448	0 नवीन नंबर १ वर्ग गज है, ज	3 के अनुसार 519/11 व 5 ते श्री रमन व्	19ए⁄11 के रूप <b>टुमार परनामी</b> वे
श्रे बुजेस कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परगामी / श्री अगिल कुमार परगामी/श्री पुनीत घमोजा /       30–09–2023       19-10-2023         श्री बुजेस कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परगामी / श्री अगिल कुमार परगामी/श्री पुनीत घमोजा /       30–09–2023       के अनुसार         प्रतिमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित वर्ग गीरद है, जो मैसर्स परा एस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वागित्व्यारण में है (उपयुंक संपत्ति मैसर्स परगामी) युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड       19-10-2023         वर्ग नीटर है, जो मैसर्स यी, एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वागित्व्यारण में है (उपयुंक संपत्ति मैसर्स परगामी) युद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड       19-10-2023         परनामी गुद्ध कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परगामी मार्केटिंग कंपनी /श्री तिपुवन कुमार परनामी / श्री कुगुवन कुमार परनामी / श्री कृगुवन कुमार परनामी / श्री कुगेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परगामी में श्री अगिल कपत / श्री रमन कुमार परनामी / श्री अगिल कुमार परनामी / श्री कुगेश कुमार कटारिय / श्रीमती अंजू परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री तिपुवन कुमार परनामी / श्री कुगेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी         प्रतनामी गुद्ध कैरिय प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री तिपुवन कुमार परनामी / श्री कुगेवन कुमार परनामी       19-10-2023         प्रतमान संपति (अनुसूची संपति) : अवल वाणिज्यिक संपत्त कि समस्त वह भाग तथा अंश जो एसटेट. गुडगा करीजा / श्रिक्त तथा उपस्थित या उपस्थित (त्रीं पर स्रित्य ने के अनुसार परनाम)       19-10-2023         प्रतमित संपति (अनुसूची संपति) : आवल वाणिज्यिक संपत्ता       श्री अनितक कुमार परनामे       19-10-2023         प्रतमित संपति (अनुसूची संपति) : आवत वाणिज्यिक संपता       श्री अतितक मा राठरा / श्री संव कि मा उर्व रा उर्व	<b>परनामी</b> प्रतिभूत में स्थि स्वामित्स्	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ग्धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i	- 122001 में	स्थित हैं, जिर	नकी माप 448	0 नवीन नंबर १ वर्ग गज है, ज	3 के अनुसार 519/11 व 5 ते श्री रमन व्	19ए⁄11 के रूप <b>टुमार परनामी</b> वे
प्रतिभूत संपति (अनुसूची संपति) : अवत वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा जपस्थित दे संकटर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्त्वचारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है) परनामी / श्री कृषेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री कृषेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री प्रुन्तिन कुमार परनामी / श्री कृषेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री पुन्नेत वर्ग नीटर है, जो नेसर्स विपर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री जुमुवन कुमार प्रतिमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित है, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वंग नीटर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वार प्रातं की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। tr. स्तंम संख्या 2 में जल्तिखितानुसार छुल राशि को भुरातान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उत्त राशि के संस संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संवंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, के यदि वियति वियाज सं विययित नियमावली के अंतर प्रतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का संवर्ध करने के लिए बाह्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्त विरयित नियमावली के अंतर्त यांतितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये में करने उत्त होगा। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरयिति नियमावली के अंतर्गत प्रतित्तृत्वात की वेद को प्रवर्तनार्थ रित नार्रवाई करने के लिए बाह्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरयिति नियमावली के अंतर्गत प्रतित्तुमूति हित के प्रवर्तनार्थ रित कार्रवाई करने के लिए बाह्य	परनामी प्रतिभूत में स्थि स्वामित्स् पश्चिम	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपस्थित, रत्तन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ाधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i – विजय आहूजा का घर।	– 122001 में है : उत्तर–	स्थित हैं, जिर निजी सड़क,	नकी माप 448 <b>दक्षिण</b> — मक	0 नवीन नंबर ध वर्ग गज है, ज ान, <b>पूर्व</b> – आ	3 के अनुसार 519 / 11 व 5 <sup>7</sup> तो <b>श्री रमन व्</b> र. पी. चतुर्वे	19ए⁄11 के रूप <b>टुमार परनामी</b> वे
हैं, सेक्टर – औल्ड जैयुडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.74 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स <b>वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वघारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड हा दारा प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है) परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड / जी. एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी / श्री त्रिनुवन कुमार प्रतमामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री औजील कुमार परनामी / श्री त्रिनुवन कुमार परनामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री जुनेत बमीजा / श्री अनिल भगत / श्री रमन कुमार परनामी प्रतिमूत संपत्ति (अनुसुची संपति) : अवल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एसरसीओ लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉमल्तेस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है. जिसकी माप 272.72 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वार प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। ह. स्तंम संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उघारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं के सूचित किया जाता है, उन्हे त सूवना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संख्या 3 में संबंधित उघारकर्ताओं / सह–उघारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वधारकों एव म्यतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, कयॉशि को रतंम संख्या 4 में दर्शाई गई विधि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, ते आसिंल उपर्युक्त तालिका में विवरणिताजुसार ततिर्ग, जो कि भुततान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुताना नहीं किया जाता है, तो आसिंल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार ततियां, जो कि भुवतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुततान ही किया जाता है, तो आसिंल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार ततिरातुमुति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्तवाई करने के लिए बाध्य होगे। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अतर्त वाहितानुमा राय दिर्करप्र विद्व</b>	परनामी प्रतिभूत में रिथ स्वामित्न पश्चिमन वी. एस	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ग्धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित 1 – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न	स्थित हैं, जिर निजी सड़क,	नकी माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी	0 नवीन नंबर १ वर्ग गज है, ज ान, <b>पूर्व-</b> आ <b>ए. 11,8</b> <b>४ 30-0</b>	23 के अनुसार 519 / 11 व 54 तो श्री रमन ब् र. पी. चतुर्वे 6,46,551/- 9-2023	19ए⁄11 के रूप <b>टुमार परनामी</b> वं दी का मकान
वर्ग मीटर है, जो मैससें वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वचारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है) परनामी / श्री कृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री त्रिमुवन कुमार परनामी / श्री कृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री त्रुमुवन कुमार परनामी / श्री कृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री त्रुमुवन कुमार परनामी / श्री कृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री पुनीत के अनुमार प्रतिपूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिजियक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्वन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसके माप 272.75 वर्ग नीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मंसर्स वीएस. अवंन एसटेट, गुडगांव हरे 50–51 में स्थित तथा उपस्थित प्रत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। r. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उद्यारकर्ताओ / वांधककर्ताओ / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सुचित किया जाता है, उन्हे 1 सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वधारकों ए स्तिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, वयोंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, के यदि सावी व्याज एवं अन्य राशियों के साक्ष त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसा तरियां पर प्रतिशृति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्तवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्ग तांदानपुर्शार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भे कदम उठाए जा रहे हैं। ान : गुडुगां संक रा9–11–2023 <b>एसटेट रिकंस्ट्रव्रान कंपन्ती</b> , (वां त, 29 सेनपासि यापत मार्ग, दादर	परनामी प्रतिभूत में स्थि स्वामित्न पश्चिम वी. एस श्री बृर्ज श्री आ	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपरिधत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ध्वारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी शि कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी नेल मगत /श्री रमन कुमार परनामी	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम	स्थित हैं, जिर निजी सड़क, ो/श्री त्रिमुवन ार परनामी/श्री	तकी माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा	0 नवीन नंबर वर्ग गज है, ज न, पूर्ब- आ / रु. 11,8 / 30-0 के	3 के अनुसार 519 / 11 व 5 51 श्री रमन व र. पी. चतुर्वे 6,46,551/- 9-2023 अनुसार	19ए / 11 के रूप ठुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023
परनामी गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी /श्री त्रिमुवन कुमार परनामी /श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी /श्री त्रुमुवन कुमार परनामी /श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी /श्री त्रुमुवन कुमार प्रतमि/ श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी /श्री पुनेत मीजा / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी प्रतिभूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, संकटर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 तं संकटर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 तं संकटर – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 तं संकर ख्या 2 में उल्लिखितानुसार उघारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/ गारंटरों/ सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं लंगरंटरों, सह–दायित्वधारको एवं सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संख्या 3 में संबंधित उघारकर्ताओं / पारंटरों, /सह–दायित्वधारकों (यारंटरों / सह–दायित्वधारकार् एवं भ्रात्वेत त्रिण के प्रवित्त क्रेण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, कयोंकि उक्त राशि को संग संख्या 4 में दर्शाई न्य्री अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है ते आर्सिल उपयुंक्त तालिका में विवरणितानुसा तरियां पर प्रतिमूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगे। अधिनियम तथा उसकं अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरियातानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तान : गुड्गांव तक्ता./– प्राधिकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वा तल, 29 सेनापति यापत मार्ग, दादर (पश्चिम), युबई(-40028, दूसाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीजाइंएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिभूत में स्थि स्वामित्न पश्चिम- वी. एस श्री बृज् श्री आ प्रतिभूत	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के स त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा ध्वारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी श. कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / नेल मगत /श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप	<ul> <li>– 122001 में</li> <li>डे : उत्तर–</li> <li>मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम</li> <li>गति के समस्त :</li> </ul>	स्थित हैं, जिर निजी सड़क, ो/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा व	तकी माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा अंश जो एससी3	0 नवीन नंबर ! वर्ग गज है, उ न, पूर्व- आ / रु. 11,8 30-0 के : गे प्लॉट नंबर !	3 के अनुसार 519 / 11 व 5 <sup>4</sup> ते <b>श्री रमन व्</b> 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में स्थि	19ए / 11 के रूप ट्रमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित
परनामी / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / श्री अनिल कुमार परनामी / श्री चुनीत धनीजा / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी प्रतिमूत संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेवटर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्बन एस्टेट, गुडगांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.76 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइयेट लिमिटेड के स्वामित्वचारण में है (जयर्क्रत संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइयेट लिमिटेड हारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। त. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वचारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे (सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–दायित्वचारकों एवं सहमतिकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वचारकों एवं सहमतिकर्ताओं कारांम संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, कयें वित्रि तिर्वे प्रवर्ताओं त्यारंटरों, सह–दायित्वचारकों एवं सहमतिकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वचारको एवं भारीकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को संस संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, के यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है तो आर्सिल उपर्युक्त तातिका में विवरणितानुसा तराशि, जय विधियों से सूचना की सेवा क लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तान : गुडगांव तांक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ईडिया) लिमिटेड एक्तेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ईडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वा तल, 20 सेनापति वापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीजाइंएन – U65999MIL2002PLC134884	परनामी प्रतिमूत में स्थि स्वामित्त पश्चिम वी. एस श्री बृजं श्री आ प्रतिमूत हँ, सेव	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के उ त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राह्नवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी शि कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / नेल मगत /श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में f	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम गत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय	स्थित हैं, जिर निजी सड़क, / श्री त्रिभुवन ार परनामी / श्री वह भाग तथा द क परिसर, अर्बन	की माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा अंश जो एससीअ । एस्टेट, गुड़गां	0 नवीन नंबर ( वर्ग गज है, ज न, <b>पूर्व</b> – आ / <b>रु. 11,8</b> 30-0 के ( ते) प्लॉट नंबर ( व हरियाणा में	3 के अनुसार 519 / 11 व 5 <sup>4</sup> ते <b>श्री रमन व्</b> 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में स्थि स्थित है, जिस	19ए / 11 के रूग <b>रुमार परनामी</b> वे दी का मकान <b>19-10-2023</b> त तथा उपस्थित की माप 272.79
धमीजा / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी       के अनुसार         प्रतिभुत संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक संपति के समस्त वह भाग तथा अंश जो एससीओ प्लॉट नंबर 50–51 में स्थित तथा उपस्थित हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्वन एस्टेट, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)।         त: स्तंम संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे । सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वधारकों एवं भाविकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार खुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, वयोंकि उक्त राशि को स्तंम संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है के यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ न राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसाप वियां पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरियित नियमावली के अंतर्गत वीरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं।         ान : गुडुगांव तक : 09–11–2023       हस्सेट रिकंस्टूतक्शन कोपनी (ईडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्टूक्शन कंपनी (ईडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, दूस्माम :+91 2286581300, www.arcil.co.in, सोजाईएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिभूत में स्थि स्वामित्न पश्चिम- वी. एर श्री बृज् श्री आ प्रतिभूत हॅं, सेव वर्ग मी द्वारा प्र	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के स त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित i – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी श. कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / नेल मगत /श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि प्रा की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई	<ul> <li>– 122001 में</li> <li>उत्तर–</li> <li>मार्केटिंग कंपनी</li> <li>श्री अनिल कुम</li> <li>वरित के समस्त व वेदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित ई है)</li> </ul>	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, ो/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा द क परिसर, अर्बन चघारण में है (	नकी माप 448 दक्षिण— मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा अंश जो एससीअ । एस्टेट, गुड़गा उपर्युक्त संपत्ति :	<ul> <li>1 नवीन नंबर श वर्ग गज है, ज ान, पूर्व आ</li> <li>र. 11,8 30-0 के थ 1 प्लॉट नंबर श व हरियाणा में रेसर्स परनामी 1</li> </ul>	<ul> <li>के अनुसार</li> <li>519 / 11 व 5-</li> <li>519 / 11 व 5-</li> <li>तो श्री रमन व्</li> <li>र. पी. चतुर्वे</li> <li>6,46,551/-</li> <li>9-2023</li> <li>अनुसार</li> <li>50-51 में स्थि</li> <li>रिथत है, जिस</li> <li>गुद्दस कैरियर</li> </ul>	19ए / 11 के रूग <b>रुमार परनामी</b> वे दी का मकान <b>19-10-2023</b> त तथा उपस्थित की माप 272.79
हैं, सेक्टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में विदित वाणिज्यिक परिसर, अर्थन एस्टेट, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, जिसकी माप 272.75 वर्ग भीटर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्क्घारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। त. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों/सह–दायित्व्धारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे । सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं /सह–उधारकर्ताओं /गारंटरों, सह–दायित्व्धारकों एवं भारीकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, व्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है के यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ न राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसान तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कर्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरयित नियमावली के अंतर्गत वीरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तक राड़-प्राप्त कार्यत्व क्रियों के तेव के सिव के किये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तक राड़-प्राप्त प्रिकंस्ट्रक्शन करनेनी (हुडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (हुडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दावर (पश्चिम), मुंबई–40028. दूस्माष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीजाइंएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी           प्रतिभूत           में स्थि           स्वामित           परिवमन           वी. एर           श्री बृध्           श्री बृध           श्री आर्ग           प्रतिभूत           ग्री त्राच           प्रतिभूत           ग्री आर्ग           प्रतिभूत           ग्री आर्ग           प्रतिभूत           ग्री परनाभी	संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा म्वारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी संबद्धाय कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप रट – ओल्ड ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि पत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल.	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम वेदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय वेदेड के स्वामित ई है) परनामी मार्केति	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, ो/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा ः क परिसर, अर्बन वधारण में है (न टेंग कंपनी /श	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा ग एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति व श्री त्रिभुवन कु	<ul> <li>1 नवीन नंबर ( वर्ग गज है, उ न, पूर्व आ</li> <li>र 11.8 30-0 के र 1 प्लॉट नंबर ( व हरियाणा में नेसर्स परनामी तार रु 34,</li> </ul>	3 के अनुसार 519 / 11 व 5' तो श्री रमन व र. पी. चतुर्वे 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में स्थि पुड्स कैरियर 598,373/-	19ए/11 के रू ट्रु <b>मार परनामी</b> वं वी का मकान <b>19-10-2023</b> त तथा उपस्थि त तथा उपस्थि त तथा उपस्थि त नथा उपस्थि त नथा उपस्थि त तथा उपस्थि त का न कान
यर्ग मोटर है, जो <b>मैसर्से वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्वधारण में है (उपर्युक्त संपत्ति मैसर्स वी.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई ऋण चुविधा में भी बंधककृत की गई है)। इ. स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूथित किया जाता है, उन्हे । सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वधारकों एवं भ्रतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है के यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ तु राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वीरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्वाक : 09–11–2023 <b>एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनि (ईडिया) लिमिटेड</b> पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी. 10वां तल, 29 संनपति बापत मार्ग, दावर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूस्माष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीजाईएन – U65999MH2002PLC134884</b>	परनामी प्रतिभूत में स्थि रवामित्व परिचम बी. एर श्री बृठं श्री आ प्रतिभूत हैं, सेव वर्ग मी द्वारा प्र परनामी परनामी	पंपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा म्वारण में हे तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी में कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं त्र है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स ग्राइवेट लिगि पत की गई ऋण सुविधा में भी बंघककृत की गई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम गति के समस्त गवित गणिज्यि मेटेड के स्वामित ई है) परनामी मार्केति रनामी / श्री अ	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, ो/श्री त्रिभुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा ः क परिसर, अर्बन वधारण में है (न टेंग कंपनी /श	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धमीजा ग एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति व श्री त्रिभुवन कु	<ul> <li>0 नवीन नंबर १</li> <li>वर्ग गज है, उ</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>ग, पूर्व आ</li> <li>र 11,8</li> <li>30-0</li> <li>के द</li> <li>30-0</li> <li>के द</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>नेसर्स परनामी ज</li> <li>गर रू. 34,4</li> <li>30-0</li> </ul>	3 के अनुसार 519 / 11 व 5: ते। श्री रमन व 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथ्य रिथित है, जिस रिथित है, जिस उपुबस कैरियर 598,373/- 9-2023	19ए/11 के रू ट्रु <b>मार परनामी</b> वं वी का मकान <b>19-10-2023</b> त तथा उपस्थि त तथा उपस्थि त तथा उपस्थि त नथा उपस्थि त नथा उपस्थि त तथा उपस्थि त का न कान
प्राप्त की गई ऋण चुविद्या में भी बंधककृत की गई है)। r, स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों एवं सहमतिकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उन्हे 1 सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों, सह–दायित्वधारकों एवं स्वतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है, के यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ त्र राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसा तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत यारियां पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत यारियां पुरमात अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। ान : गुडुगांव त्तंक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (दुंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिमूत में स्थि स्वामित् पश्चिम- नी. एर श्री बृठं श्री आ प्रतिमृत इ. सेव वर्ग मी द्वारा प्र परनामी परनामी धमीजा प्रतिमूत	संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के स त एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा म्धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी श कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी तं मगत / श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर है, जो मेसरे वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि एत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिगिटेड /जी. एल. / श्री बृजोश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम गति के समस्त वेदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित ई है) परनामी मार्केटि रनामी / श्री अ पत्ति के समस्त	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/श्री त्रिमुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्ब- वसारण में है ( टेंग कंपनी // रीलि कुमार पर वह भाग तथा :	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा । एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति : श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पुन् अंश जो एससीः	<ul> <li>0 नवीन नंबर १</li> <li>वर्ग गज है, उ</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>ज, पूर्ड आ</li> <li>अ</li> <li>क. 11,8</li> <li>30-0</li> <li>के द</li> <li>वे हरियाणा में</li> <li>नेसर्स परनामी ज</li> <li>गर रू. 34, 30-0</li> <li>के द</li> <li>तो प्लॉट नंबर १</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>ते र्स परनामी ज</li> <li>गर रू. 34, 30-0</li> <li>के द</li> <li>तो प्लॉट नंबर १</li> </ul>	3 के अनुसार 519 / 11 व 5: ते। श्री रमन व् 6,46,551/- 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथ्य (598,373/- 9-2023 अनुसार 598,373/- 9-2023 अनुसार 50-51 में रिथ्य	19ए/11 के रू टुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित
ा सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ संख्या 3 में संबंधित उघारकर्ताओं / सह-उघारकर्ताओं / गारंटरों, सह-दायित्वचारकों एय स्मतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साध त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसार तरियों पर प्रतिमूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरियों पर प्रतिमूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। ान : गुड़गांव तांक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (द्वंडिया) लिमिटेड पंजीबृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-40028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिमूत में स्थि स्वामित् परिचम वी. एस् श्री बृण् श्री आ प्रतिमूत हँ, सेव वर्ग मी द्वारा प्र परनामी घमीजा प्रतिमूत हँ, सेव	संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के स त एवं उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा म्वारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी श कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडियित कॉम्प्लेस के रूप में न वी मार्ड ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गइ - गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस के रूप में रापति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस के रूप में	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम वेदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित ई है) परनामी / श्री अ परनामी / श्री अ परनामी / श्री अ	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/श्री त्रिमुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा क क परिसर, अर्बन वधारण में है (त टेंग कंपनी / श रिनिल कुमार पर वह भाग तथा क	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा ा एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति भी त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससीव ा एस्टेट, गुडगां ा एस्टेट, गुडगां	<ul> <li>0 नवीन नंबर १</li> <li>वर्ग गज है, उ</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>ज</li> <li>ज</li> <li>र 11,8</li> <li>30–0</li> <li>के द</li> <li>गे प्लॉट नंबर १</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>नेसर्स परनामी</li> <li>ज</li> <li></li></ul>	३ के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           ते अगे रमन व           द. पी. चतुर्वे           6,46,551/- <b>9</b> – 2023 <b>98</b> ,373/- <b>9</b> –2023 <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025	19ए/11 के रू 29 <b>गर परनामी</b> वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित 19-10-2023 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7
भतिकर्ताओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि को स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तिथि अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी व्याज एवं अन्य राशियों के साथ त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसा तरियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरधित नियमावली के अंतर्गत वीरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्रांतान : गुडुगांव नांक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीबृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिमूता में रिप्थ रयामित्त परिचम वी. एस् श्री बुर्ण श्री आ प्रतिमूत हॅं, सेव परनामी घमीजा प्रतिमूत हॅं, सेव वर्ग मी।	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं - विजय आहूजा का घर। डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी शेष कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संप टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस्स प्राइवेट लिमि टर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि प्र की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गह गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बृजोश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री अनिल मगत / श्री रनन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस के रूप में हिस्पत्ती (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं ट – ओल्ड जॉफ्लेस के रूप में संपति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं ट – ओल्ड कॉम्प्लेस वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय रूपामी मार्केरि रप्तामी / श्री अ परित के समस्त वेदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/श्री त्रिमुवन ार परनामी/श्री वह भाग तथा क क परिसर, अर्बन वधारण में है (त टेंग कंपनी / श रिनिल कुमार पर वह भाग तथा क	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा ा एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति भी त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससीव ा एस्टेट, गुडगां ा एस्टेट, गुडगां	<ul> <li>0 नवीन नंबर १</li> <li>वर्ग गज है, उ</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>ज</li> <li>ज</li> <li>र 11,8</li> <li>30–0</li> <li>के द</li> <li>गे प्लॉट नंबर १</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>नेसर्स परनामी</li> <li>ज</li> <li></li></ul>	३ के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           ते अगे रमन व           द. पी. चतुर्वे           6,46,551/- <b>9</b> – 2023 <b>98</b> ,373/- <b>9</b> –2023 <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025	19ए/11 के रू 29 <b>गर परनामी</b> वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित 19-10-2023 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7
अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज एवं अन्य राशियों के साथ न राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसाग तिथों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत वरितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। त्रांत : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड राजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूस्भाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in,	परनामी प्रतिमूत में स्थि स्वामित परिचन- श्री बुर्ण श्री बुर्ण श्री जी प्रतिमूत हैं, सेव परनामी घमीजा प्रतिमूत हैं, सेक वर्ग मी घरीजा प्रतिमूत	संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : आवासीय संपत्ति के स त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा म्वारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी श कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं हर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि एत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री अनिल भगत / श्री रनन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं हर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में हर दै, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि हे तर् है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि ही गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)।	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित ई है) परनामी मार्केटि रनामी / श्री अ पत्नामी / श्री अ पत्तामी / श्री अ पत्तामी र श्री अ	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/श्री त्रिमुवन र परनामी/श्री वह भाग तथा द क परिसर, अर्बन वचारण में है ( टेंग कंपनी // गिल कुमार पर वह भाग तथा द क परिसर, अर्बन वघारण में है (त	ाकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा । एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति श्री त्रिभुवन कु नामी / श्री पुर अंश जो एससीठ । एस्टेट, गुड़गां उपर्युक्त संपत्ति	<ul> <li>त्वीन नंबर श् वर्ग गज है, उ न, पूर्व आ</li> <li>र. 11,8 30-0 के द ो प्लॉट नंबर श् व हरियाणा में नेसर्स परनामी जित उ-0 के द व हरियाणा में नेसर्स वी.एस. दं</li> </ul>	3 के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           ते अगे रमन व           6,46,551/- <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 8,073/- <b>9</b> – 2023 <b>98</b> ,373/- <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2023 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025 <b>9</b> – 2024 <b>9</b> – 2025	19ए/11 के रू टुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित 19-10-2023 त तथा उपस्थित व तथा उपस्थित त तथा उपस्थित व नाथा उपस्थित ह लिमिटेड द्वार
त राशि, जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आर्सिल उपर्युक्त तालिका में विवरणितानुसाग तिथों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत र्यारितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। तान : गुड़गांव ताक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड राजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूस्माष :+91 2286581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिभूत में रिध्य परिमत्न बी. एर श्री खं श्री खं श्री ज श्री ज श्री ज श्री खं परनामी द्वारा प्र परनामी द्वारा प्र परनामी द्वारा प्र श्री क्र परिम्ता श्री क्र परिम्ता के त परिम् त पर्मे त परिम् त पर्मे त परिम् त पर्मे पर्मे त परिम् त पर्मे त पर्मे त पर्म त पर्म त परिम् त पर्मे त पर्म त पर्म त परिम् त पर्म त पर्म त पर्म त पर्म त पर्म त पर्मे पर्म त पर्म त पर्म त पर्म त पर्म त पर्म त पर्म त पर त पर्म त पर्म त पर्म त पर्म पर्म त पर्म पर्म त पर्म पर्म पर्म त पर्म त पर्म पर्म पर्म पर्म् पर्म पर्म प्त पर पर पर प्र पर्म त पर्म प्र त पर्म पर्म पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर पर	पंपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा म्थारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी संचति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक संप दर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस्स के रूप में टिर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि एत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बुजेश खुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री बुजेश खुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री अनिल भगत / श्री रनन कुमार परनामी संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक सं टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि ने गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई हेर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में हिर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि ठी गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधव के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम सं	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपर्न श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यित वेदित वाणिज्यित मेटेड के स्वामित रूप्तामी / श्री अ परनामी / श्री अ पत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यित वेदित वाणिज्यित केटेड के स्वामित कर्कर्ताओं / गारंट व्या 3 में संबंधि	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, //भी तिभुवन ार परनामी/भी वह भाग तथा द क परिसर, अर्वन वघारण में है (र वह भाग तथा द क परिसर, अर्वन वघारण में है (र रगें/ सह–दायि वेत उधारकर्ता3	ाकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससीव । एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति : श्री त्रिभुवन कु नामी ∕ श्री पुड जंश जो एससीव अंश जो एससीव उपर्युक्त संपत्ति : त्वधारकों एवं स्	<ul> <li>० नवीन नंबर १</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>न, पूर्व– आ</li> <li>२</li> <li>र 11,8</li> <li>30–0</li> <li>के द</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>तेरसर्र परनामी</li> <li>तेर द</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>तेर द</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>तेर द</li> <li>तेर द</li> <li>तेर द</li> <li>ते द</li></ul>	3 के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           ते अगे रमन व           त. पी. चतुर्वे           6,46,551/-           9-2023           अनुसार           60-51 में रिथ           रिथत है, जिस           998,373/-           9-2023           अनुसार           50-51 में रिथ           रिथत है, जिस           प्रवलपर्स प्राइवे           को सुचित किर           रंटरों, सह-व	19ए/11 के रू टुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेड 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार या जाता है, उन ायित्वधारकों ए
र्वारितानुसार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं। ान : गुड़गांव हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी तांक : 09-11-2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, दूरमाष :+91 2286581300, www.arcil.co.in, सीआईएन - U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिपूत्त मं रिथ परियन्म बी. एर श्री बुण् प्रतिपूत् द्व. रे परनामी द्वारा प्र परनामी द्व. रे परनामी प्रतिपूत् वर्ग मीजपूत प्रतिपूत ब. रे प्रतिपूत ब. रे प्रतिप्रति ब. रे प्रतिप्रत ब. रे प्रतिप्रत ब. रे प्रतिपूत ब. रे प्रतिप्रत ब. रे प्रतिप्रत ब. रे प्रतिप्रत ब. रे प्रतिप्रत ब. रे प्रतिप्रत ब. रे प्रतिप्रत ब. रे प्रतिप्रति व. रे प्रतिप्रति प्रतिप्रत ब. रे प्रतिप्रति व. रे प्रतिप्रति ब. रे प्रतिप्रति व. रे प्रतिप्रति प्रतिप्रति व. रे प्रतिप्रतिप्रति प्रतिप्रति प्रतिप्रतिप्रति प्रतिप्रतिप्रति प्रतिप्रति प्रतिप्रति प्रतिप्रति प्रतिप्रति प्रतिप्रति प्रतिप्रति प्रति प्रतिप्रति प्रति प्रतिप्रति प्र प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रत प्रते प्रति प्रति प्रति प्र प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र	पंपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा मधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित – विजय आहूजा का घर। क. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी शि कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक संप टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में ति मगत / श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक सं टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि एत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री अनिल मगत / श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अवल वाणिज्यिक सं टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि ठी गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधव के प्रकाशन के 60 दिनों के अंतर, रत्म सं ओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगता-	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यित मेटेड के स्वामित रूतामी / श्री अ परनामी / श्री अ परनामी / श्री अ पत्त के समस्त वेदित वाणिज्यित मेटेड के स्वामित ज्वर्क्ताओं / गारंद व्या 3 में संबंधि न करने के लिए	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, //श्री त्रिमुवन र परनामी/श्री वह भाग तथा द क परिसर, अर्व- वद्यारण में है (त यह भाग तथा द क परिसर, अर्व- वधारण में है (त रगें/सह–दायिं रेव उद्यारकर्ताव र कहा जाता है	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससी3 । एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति : । एस्टेट, गुडगां इपर्युक्त संपत्ति : विद्यारकों एवं स् त्यधारकों एवं स् त्यधारकों एवं रक्त	<ul> <li>त्वीन नंबर १</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>ग, पूर्व– आ</li> <li>र 11,8</li> <li>30-0</li> <li>के द</li> <li>रो प्लॉट नंबर १</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>तेसर्स परनामी</li> <li>र 34,,</li> <li>उ०-0</li> <li>के द</li> <li>र विराया के द</li> </ul>	3 के अनुसार           3 के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           ते अगे रमन व           द. पी. चतुर्ये           6,46,551/-           9-2023           अनुसार           00-51 में रिथा           रिथात है, जिस्           60-51 में रिथा           598,373/-           9-2023           अनुसार           50-51 में रिथा           रिथात है, जिस्           तेवलपर्स प्राइवे           को सुचित किर           को सुचित किर           संख्या 4 में	19ए/11 के रू टुमार परनामी बं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेव 19-10-2023 त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित व तथा उपस्थित द लिमिटेड द्वार ग जाता है, उन ायित्वधारकों एर दर्शाई गई तिर्धि
ान : गुड़गांव तांक : 09−11−2023 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी. 10वां तल. 29 सेनापति बापत मार्ग, दावर (पश्चिम), मुंबई-400028. दूरमाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिपूर्त में रिथ पश्चिम- बी. एर श्री जुं हैं संव वर्ग मी प्रतिभूत इ. संत परनामी परनामी परनामी परनामी परनामी परनामी परनाम के. पर प्रतिपूर्त श्रे प्रतिपूर्त श्रे प्रतिपूर्त श्रे सं सं श्रे परिमन प्रतिम् त प्रतम् त त प्रतम् त प्रतम् त प्रतम् त त प्रतम् त प्रतम् त त त त त त त त त त त त त त त त त त	पंपति (अनुसूधी संपति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा म्वारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। म. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मा कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी संपत्ति (अनुसूधी संपति) : अचल वाणिज्यिक संप तर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में पद है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि एत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री अनित मगत / श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूधी संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि इर है, जो नैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि हे गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। संख्या 2 में उल्लिखितानुसार उधारकर्ताओं / बंधव के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, रत्तम सं ओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगता- संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम यत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित ई है) परनामी / श्री अ पत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय नेटेड के स्वामित क्रकर्ताओं / गारंदव व्या 3 में संबंधि न करने के लिप पाया गया है।	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, // श्री त्रिमुवन र परनामी/ श्री वह भाग तथा द क परिस, अर्व- वद्यारण में है (त वह भाग तथा द क परिस, अर्व- वद्यारण में है (त रयां/ सह–दायि देव उधारकर्ताव र कहा जाता है यह स्पष्ट किय	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा पररेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति व भी त्रिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससीव ा एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति व त्वधारकों एवं स् तं / सह–उधा द, क्योंकि उक्त ा जाता है कि	<ul> <li>० नवीन नंबर १ वर्ग गज है, ज न, पूर्व– आ</li> <li>र. 11,8 30-0 के र 1 प्लॉट नंबर १ व हरियाणा में नेसर्स परनामी के र व हरियाणा में नेसर्स वी.एस. रं हहमतिकर्ताओं / गा राशि को रतांम यदि भावी ब्या</li> </ul>	3 के अनुसार           31 रमन व           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           ते अगे रमन व           द. पी. चतुर्ये           6,46,551/-           9-2023           अनुसार           00-51 में रिथा           रिथत है, जिस           998,373/-           9-2023           अनुसार           598,373/-           9-2023           अनुसार           50-51 में रिथा           हिथत है, जिस           जिर्या ही तै किय           में सुचित किय           में सुचित किय           प्रे प्रित किय           पर्य स में           ज एवं अन्य	19ए/11 के रूग ट्रुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित तकी पा 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार मा जाता है, उन ायितक्यारकों ए दर्शाई गई तिर्धि राशियों के साथ
गंक : 09–11–2023 एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, दूरमाष :+91 2286581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिपूल में स्थि परामिल परिपूल श्री बुखे श्री बुखे श्री बुखे श्री बुखे श्री बुखे श्री बुखे श्री बुखे श्री बुखे परनामी प्रतिपूल में परनामी प्रतिपूल के संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संति संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संतिपूल संति संतिपूल संति संति संति संति संति संति संति संति	पंच उपस्थित, रतन गार्डन, गुडगांव, हरियाणा धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी ख कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / नेत मगत / श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में टर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि टर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि हर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्टेल्क्स के रूप में त्रिय श्री अनिल मगत / श्री रनन कुमार परनामी संपति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्टेल्क्स के रूप में ने प्र श्री अनिल मगत / श्री रान कुमार परनामी संपदि (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्टेल्स के स्वय में मार्थति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूराची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्टेल्स के रूप में के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संस के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संस यंबंधित ऋण खाता के संबंध में पुगतानयोगय । जो कि गुगतान की तिथि तक देय हो सकती ह प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई क	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम वेदित वाणिज्यिय देख के स्वामित ई है) परनामी / श्री अ पत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय केटेड के स्वामित करनां औ / गारंट व्या अ में संबंधि न करने के लिए ब र के लिए ब	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, // श्री त्रिमुवन र परनामी/श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन वद्यारण में है (र टेंग कंपनी // तिल कुमार पर वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन वद्यारण में है (र र्यां/ सह–दायिं येत स्पार्प्ट किया ए कहा जाता है यह स्पार्ट किया ह्या होगी। अधि	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा परदेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति और जिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससीव परदेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति दत्त्वधारकों एवं स् तं / सह–उधा , क्योंकि उक्त ा जाता है कि जाता है को द	<ul> <li>त्मवीन नंबर १</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>वर्ग गज है, ज</li> <li>ज, पूर्व आ</li> <li>अ</li> <li>क. 11,8</li> <li>30-0</li> <li>के र</li> <li>वे हरियाणा में</li> <li>ते प्लॉट नंबर १</li> <li>व हरियाणा में</li> <li>ते प्लॉ वी.एस. इं</li> <li>ताहमतिकर्ताओं / गा</li> <li>यदि भावी व्य</li> <li>मार्सिल उपर्युक</li> </ul>	3 के अनुसार           319 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           54,6551/-           9-2023           अनुसार           50-51 में रिखा           60-51 में रिखा           रिखा है, जिस           598,373/-           9-2023           अनुसार           598,373/-           9-2023           अनुसार           500-51 में रिखा           हि, जिस           उठ-51 में रिखा           के सुचित है, जिस           उठ-51 में रिखा           के सुचित है, जिस           के सुचित हि, जिस           के सुचित जिस           के स्रिया 4 में           के स्रिया 4 में           के स्रिया 4 में           के स्रिया 4 में	19ए/11 के रूग ट्रुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेव 19-10-2023 त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित ह लिमिटेड द्वार या जाता है, उन गयित्वधारको ए द दर्शाई गई तिर्दि राशियों के साथ विवरणितानुसा
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड गंजीकृत कार्यालय : दि रूबी. 10वां तल, 29 सेनापति वापत मार्ग, दादर (पश्चिम). मुंबई-40028. दूरमाष :+91 2286581300, www.arcil.co.in, सीआईएन – U65999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिपूर्त याविक याविक में स्थिय परियन- बी. एर श्री बुण् श्री बुण् स्वी परनामी प्रति प्रत प्रतम् प्रतामि प्रति प्रतम् प्रतामि प्रतम् प्रत्राम् प्रत्नाम् प्रतम् प्रत्ता प्रत्ता प्रत्ता प्रत्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्रम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्राम् प्र	पंच उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। म. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी म. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संत हर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में टर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि पत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुद्दस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बुजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री अनिल भगत / श्री रमन कुमार परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक संत टर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि टर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि टर ही. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि हर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संर के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम सं को के समक्ष वर्शितानुसार खुल राशि का भुगतानयोग्य जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती र प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ जियत कॉर्याई क पर अय विधियों से सूचना की सेवा के लिये भ	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम वेदित वाणिज्यिय देख के स्वामित ई है) परनामी / श्री अ पत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय केटेड के स्वामित करनां औ / गारंट व्या अ में संबंधि न करने के लिए ब र के लिए ब	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, // श्री त्रिमुवन र परनामी/श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन वद्यारण में है (र टेंग कंपनी // तिल कुमार पर वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन वद्यारण में है (र र्यां/ सह–दायिं येत स्पार्प्ट किया ए कहा जाता है यह स्पार्ट किया ह्या होगी। अधि	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा परदेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति और जिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससीव परदेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति दत्त्वधारकों एवं स् तं / सह–उधा , क्योंकि उक्त ा जाता है कि जाता है को द	<ul> <li>त्मवीन नंबर १ वर्ग गज है, ज न, पूर्व आ</li> <li>र. 11,8 30-0 के र 1 प्लॉट नंबर १ व हरियाणा में नेसर्स परनामी के र्स गे प्लॉट नंबर १ व हरियाणा में नेसर्स परनामी के र्स्ता ये के र्स्ता / प्राया में ने सर्पर वी.एस. इं</li> </ul>	के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           6,46,551/- <b>6,46,551/- 6,46,251/- 6,46,251/- 6,46,251/- 6,46,273/- 6,203 1,51,17 1,51,17 1,51,17 1,51,17 1,51,17 1,51,17 1,51,17 1,51,17</b>	19ए/11 के रूग ट्रुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेव 19-10-2023 त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित त तथा उपस्थित ह लिमिटेड द्वार या जाता है, उन गयित्वधारकों ए द र्साई गई तिर्दि राशियों के साथ विवरणितानुसा वली के अंतर्गत
ोटि।।। पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बाँपत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, दूरभाष :+91 2266581300, www.arcil.co.in, Normalize सीआईएन – U659999MH2002PLC134884	परनामी प्रतिमूल में स्थि प्रविम्त परिम्त श्री खुयं श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री	पंच उपरिश्वत, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा स्वारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। क. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी संपत्ति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं तर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि पद है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि पद है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि दर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि पत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुद्द कै जीमेसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि पर की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुद्द के जोमेसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि हर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि के अनिल मगत / श्री रगन कुगार परनामी संपति (अनुसूची संपत्ति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्लेक्स के रूप में जि ग ई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। संख्या त अप्य सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। संख्या द में उल्लिखितानुसार उघारकर्ताओं/बंधन के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंभ सं संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य प जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती र प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्थ उचित कार्रवाई क हगांव	– 122001 में डे : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम वेदित वाणिज्यिय देख के स्वामित ई है) परनामी / श्री अ पत्ति के समस्त वेदित वाणिज्यिय केटेड के स्वामित करनां औ / गारंट व्या अ में संबंधि न करने के लिए ब र के लिए ब	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, // श्री त्रिमुवन र परनामी/श्री वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन वद्यारण में है (र टेंग कंपनी // तिल कुमार पर वह भाग तथा : क परिसर, अर्वन वद्यारण में है (र र्यां/ सह–दायिं येत स्पार्प्ट किया ए कहा जाता है यह स्पार्ट किया ह्या होगी। अधि	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा परदेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति और जिभुवन कु नामी / श्री पु- अंश जो एससीव परदेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति दत्त्वधारकों एवं स् तं / सह–उधा , क्योंकि उक्त ा जाता है कि जाता है को द	<ul> <li>त्मवीन नंबर ह वर्ग गज है, ज न, पूर्व– आ</li> <li>र. 11,8 30-0 के र 1 प्लॉट नंबर ह व हरियाणा में तैसर्स परनामी तेसर्स परनामी तेसर्स वी.एस. रं हमतिकर्ताओं ० हमतिकर्ताओं ० पा राशि को रत्तम यदि भावी व्य प्रदि को अंतर्गत f</li> </ul>	के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           6,46,551/- <b>9</b> -2023 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2023 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2023 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2023 <b>1</b> -1 <b>1</b> -1<	19ए/11 के रूग ट्रमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार मा जाता है, उन गयित्वधारकों ए दर्शाई गई तिमि विवरणितानुसा विवरणितानुसा विवरणितानुसा
	परनामी प्रतिमूल में स्थि प्रविम्त परिम्त श्री खुयं श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री	पंपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के सं त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुडगांव, हरियाणा म्धारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं – विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मा कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी संपत्ति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक सं रर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में टिर है. जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिगि रे श्री अनिल मगत / श्री रगन कुमार परनामी संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में नि गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। संख्या २ में उल्लिखितानुसार ज्यारकर्ताओं बंधव के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, स्तंम संस को के समक्ष दर्शितानुसार जुल राशि का भुगतान संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य ' जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती र प्रतिभूति हित के प्रवर्तनार्ध उचित कार्रवाई क ार अन्य विधियों से सूचना की संवा के लिये भी इगांव ⊨11–2023	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय वेदेड के स्वामित रूकतांओं / गारंद व्या उ में संबंधि वा उ में संबंधि ते के स्वाम उ जा मुराता स्व के स्व जात्र के स्व के स्वामित के स्व के स्वामित के स्व के स्वामित के संब के स्व के स्वामित के संब के स्व स्व के स्व की के संव की के संव की के से की के से की के से की की के से की के से की की के से की की की की की के से की की के से की की के से की के से की की की की की की की की की की के से की	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/ श्री त्रिभुवन ार परनामी/ श्री वह भाग तथा ३ क परिसर, अर्वन वद्यारण में है (त टेंग कंपनी / / तिल कुमार पर वह भाग तथा ३ क परिसर, अर्वन वद्यारण में है (त र कहा जाता है यह स्पष्ट किय यह स्पष्ट किय घ्य होगी। अधि जा रहे हैं।	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससीव एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति व भी त्रिभुवन कु नामी / श्री पुर अंश जो एससीव एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति व एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति व त्वधारकों एवं स् तं यांकि उक्त ॥ जाता है कि जाता है, तो व वेनियम तथा उ	<ul> <li>त्वीन नंबर ह वर्ग गज है, ज न, पूर्व आ</li> <li>र. 11,8 30-0 हे र 1 प्लॉट नंबर ह व हरियाणा में रेसर्स परनामी ते रा र 34, 30-0 हे र ते र र 34, 30-0 हे र ते र र 34, 30-0 हे र र 34, र 34, र 30-0 हे र र 34, र 34</li></ul>	के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           6,46,551/- <b>9</b> -2023 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2023 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2023 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2024 <b>9</b> -2023 <b>1</b> -1 <b>1</b> -1<	19ए/11 के रूग ट्रमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार मा जाता है, उन गयित्वधारकों ए दर्शाई गई तिमि विवरणितानुसा विवरणितानुसा विवरणितानुसा
	परनामी प्रतिमूल में स्थि प्रविम्त परिम्त श्री खुयं श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री	संपति (अनुसूची संपति) : आवासीय संपत्ति के ज त एवं उपस्थित, रतन गार्डन, गुड़गांव, हरियाणा मधारण में है तथा निम्नानुसार परिसीमित तं - विजय आहूजा का घर। त. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/जी. एल. परनामी मां कुमात कटारिया / श्रीमती अंजू परनामी / नेल मगत /श्री रमन कुमार परनामी संपति (अनुसूची संपति) : अचल वाणिज्यिक सं टर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेस्स के रूप में टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि एत की गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई गुड्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड /जी. एल. / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्रीमती अंजू प / श्री बृजेश कुमार कटारिया / ग्रीमती अंजू प / श्री बृजेश कुमार कटारिया / श्री रमन त्राह जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि ते गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई हर – ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्ष के रूप में टर है, जो मैसर्स वी. एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमि ते गई ऋण सुविधा में भी बंधककृत की गई है)। संख्या २ में उल्लिखितानुसार उघारकर्ताओं / बंधव के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर, रतम संस ओं के समक्ष दर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य ! जो कि भुगतान की तिथि तक देय हो सकती ह प्रतियिति हत के प्रवर्तनार्थ जवित कार्रवाई क ार अन्य विधियों से सूचना की सेवा के लिये भ इगांव म11–2023 <b>एसरेट रि</b>	– 122001 में है : उत्तर– मार्केटिंग कंपनी श्री अनिल कुम विदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित ई है) परनामी / श्री अ पत्ती के समस्त विदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित विदित वाणिज्यिय वेदित वाणिज्यिय मेटेड के स्वामित कर्कर्ताओं / गारंट व्या 3 में संबंधि न करने के लिए पाया गया है। ह, का भुगता रने के लिए ब वो कदम उठाए	रिथत हैं, जिर निजी सड़क, 1/ भी तिभुवन वह भाग तथा 3 क परिसर, अर्वन वधारण में है (त टेंग कंपनी /4 तिल कुमार पर वह भाग तथा 3 क परिसर, अर्वन वधारण में है (त दर्ग / सह–दायि देत उधारकर्ता द कहा जाता है यह स्पष्ट किय मच्च होगी। अहि जा रहे हैं।	तकी माप 448 दक्षिण– मक कुमार परनामी पुनीत धनीजा अंश जो एससीव एस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति : भी त्रिमुवन कु नामी / श्री पुर प्रस्टेट, गुडगां उपर्युक्त संपत्ति : एस्टेट, गुडगां श्री त्रिमुवन कु नामी / श्री पुर त्वधारकों एवं स् तं प्रसिठ-उधा , क्योंकि उक्त 11 जाता है कि वोनियम तथा उ (इंडिया)	<ul> <li>त्वीन नंबर श वर्ग गज है, ज न, पूर्व आ</li> <li>र. 11,8 30-0 हे र ते रागे प्लॉट नंबर श व हरियाणा में तैसर्स परनामी ते रागे त्वे रत्ते ते प्लॉट नंबर श व हरियाणा में तैसर्स परनामी ते रागे त्वे रत्ते ते प्लॉट नंबर श व हरियाणा में ते रागे त्वे रत्ते रकर्ताओं / गा। राशि को रत्ते सारे लाउपर्युक सके अंतर्गत f</li> <li>एसेट रिकंस्ट्रट लिमिटेड</li> </ul>	के अनुसार           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           519 / 11 व 5'           6,46,551/- <b>9</b> -2023 <b>9</b> -21 <b>1</b> स्पूचित किय           रंटरॉ, सह-व <b>1</b> तातिका में           वेरचित नियम <b>8</b> -21 <b>8</b> -21 <b>9</b> -21 <b>1</b> तातिका में <b>1</b> रचित नियम <b>1</b> स्रान <b>कंपनी (</b> ;	19ए/11 के रूग ट्रुमार परनामी वं दी का मकान 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 प्राइवेट लिमिटेर 19-10-2023 त तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार न तथा उपस्थित की माप 272.7 ट लिमिटेड द्वार ग जाता है, उन गयित्वधारकों एग दर्शाई गई तिपि राशियों के साथ विवरणितानुसा वविरणितानुसा वविरणि को अंतर्गत

नई दिल्ली

Quarter Ended

30-Sep-23 30-Jun-23 30-Sep-22 30-Sep-23 30-Sep

वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

अन्य बातों के साथ—साथ व्याख्यात्मक विवरण और रिमोट ई—वोटिंग के लिए निर्देश से शामिल

aar.co

1 कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री सुभाष पांडे की नियुक्ति

2 कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव

मतपत्र सचना कंपनी की वेबसाइट www.

संकल्प का प्रकार

विशेष

विशेष

क्र.सं संकल्प का संक्षिप्त विवरण

Financial

Year Ended

31-Mar-23

Half Year Ended

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में डाक मतपत्र सूचना का इलेक्ट्रोंनिक डिस्पैस 08 नवम्बर, 2023 को ई—नेल के माध्यम से केवल उन सदस्यों को किया गया है जिनके नाम 03 नवम्बर, 2023 (''कट—ऑफ तिथि'') को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएर)') और सेंट्रल दिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) तिमिटेड (''सीडीएसएल') से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं और जिनके ई—मेल पते कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

तदनुसार, डाक मतपत्र ज्यें और पूर्व-भुग्तेय व्यवसाय उत्तर लिफाफे के साथ डाक मतपत्र सूचना की मौतिक प्रति इस डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को नहीं मेजी जा रही है।

क मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 08 नवंबर, 2023 को पूरा हो गया है।

कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली है। रिमोट ई—वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया सूचना के 'नोट्स' सेक्शन के माग के रूप में दी गई है।

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिये गये निर्देशों को मली-मांति पढ़ लें और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए सूचना के 'नोट्स' सेक्शन में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी सहमति (एफओआर) या असहमति (खिलाफ) दर्ज करें।

	सुबह 9:00 बजे (मा.मा.स) मंगलवार, 14 नवंबर, 2023
ई—वोटिंग की समाप्ति	सायं 5:00 बजे (भा.मा.स) बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023

इस अवधि के दौरान कट—ऑफ तिथि अर्थात् (03 नवम्बर, 2023) को या तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकते हैं। वोटिंग अधिकार की गणना कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मुल्य पर की जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद सदस्य को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई—वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के अनुसार ई—वोटिंग प्रक्रिया सभी व्यक्तिगत ढीमेट खाता धारकों के लिए वोटिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए ढिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी (ढीपी) के उनके डीमेट खातों / वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से सक्षम की गई है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई—वोटिंग सुविधा का लाम उठाने के लिए अपने संबंधित डीपी के पास अपना मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल आईडी को अपडेट कराएं। रिमोट ई—वोटिंग की लॉगिन प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश डाक मतपत्र सूचना में दिये गये है।

निदेशक मंडल ने रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री साकेत शर्मा, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ4229), पार्टनर मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

वोट की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के पास अपनी रिपोर्ट जमा करेगा । संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ डाक मतपत्र (रिपोर ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से) के माध्यम से आयोजित वोटिंग का परिणाम 15 दिसम्बर, 2023 को या उससे पूर्व अध्यक्ष या ऐसे किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित किया जाएगा। इसे कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना बीएसई लिभिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई"), जहां कंपनी के हक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को दी जाएगी और यह उनकी संबंधित वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपतब्ध होगा। प्रस्तात, यदि अनुमोदित किया जाता है तो इसे रिपोट ई—वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात् 13 दिसम्बर, 2023 को प्रमावी रूप से पारित माना जाएगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत कराने के लिए सदस्यों हेतु आवश्यक व्यवस्था की है। जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोघ है कि वे इसे पंजीकृत कराएं:

- ) यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में घारित है तो इसे अपने ढीमेट खाते का रखरखाव करने वाले अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत कराएं ।
- ii) भौतिक प्रारूप में शेयर घारित करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई—मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत मरा गया एवं हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआए-1 (कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com पर उपलब्ध) को अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, यूनिट घामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, 4ई/2, झंवेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055, ई—मेलः rla@alankit.com के पास जमा करके इसके पंजीकृत/अपडेट कराएं।

किसी भी पूछताछ के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरघारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरघारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 और 022 – 2499 7000 पर कॉल कर सकते है या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज सकते हैं।

	कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
	हस्ता./—
	व्यपर्णा गोयल
स्थान : नई दिल्ली	कंपनी सचिव
दिनांकः 08.11.2028	सदस्यता सं. 22787